



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1—अप्रैल 7, 2006 (चैत्र 11, 1928)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1—APRIL 7, 2006 (CHAITRA 11, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2006

सं. 161, दिनांक 2 मार्च 2006—राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (आई. टी. : 87) की अधिकारी सुश्री एम. वी. भानुमति का केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 7 फरवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से 6 फरवरी, 2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय डाक सेवा (87) के अधिकारी श्री एस. सी. बर्मा का संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग से स्थानांतरण होने पर उन्हें 7 फरवरी, 2006 (पूर्वाह्न) से 6 फरवरी, 2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. विजयराघवन
अवर सचिव

सेना मुख्यालय
(क्यू एम जी शाखा)

सं. 162, दिनांक 3 मार्च 2006—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अनु-भाग अधिकारी को सशस्त्र सेना मुख्यालय में, सशस्त्र सेना मुख्यालय

सिविल सेवा नियम 7(8) के अधीन उप-निदेशक (ग्रुप 'ए' राजपत्रित) वेतनमान रुपए (10,000--15,200) के पद पर उनके नाम के आगे अंकित तिथि से 08 फरवरी 2006 तक की अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्ति होने तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

नाम एवं नियुक्ति की तिथि

जगदीश सिंह, 30 नवम्बर 2005

जी एन चौहान, 30 नवम्बर 2005

राजकुमार, 05 दिसम्बर 2005

आर एस मेहरा, 01 दिसम्बर 2005

वी डी मीना, 30 नवम्बर 2005

यह नियुक्तियां पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर हैं तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने पर बिना सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

शंकर सिंह
उप-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रशा.)

सं. 163, दिनांक 7 मार्च 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
स्थाई आयोग (विशेष सूची)

निम्नलिखित जेसीओज/एनसीओज की सेना अनुदेश 85/74 के अंतर्गत 02 जुलाई 2005 से लेफ्टिनेंट के पद पर संबंधित श्रेणी व निम्नलिखित वरीयता के क्रम में स्थाई आयोग (विशेष सूची) में अनुदान प्रदान किया जाता है, उन सभी जेसीओज को जिनकी जेसीओ और अन्य पद में कुल मिलाकर आठ वर्ष या उससे अधिक सेवा है, और जो इस अधिसूचना में सम्मिलित हैं, उन्हें सेना अनुदेश 85/74 के सब-पैरा 7 (सी) के अंतर्गत केवल वेतन के लिये दो साल की वरीयता दी जाती है :--

सेना नम्बर, पद तथा नाम, एसएल नम्बर, पिछली आर्म सर्विस/श्रेणी

जेसी-199959 वाई, सूबेदार मेजर जय प्रकाश, 4825एच, इंजीनियर्स
आईईबी/आर/एसडब्ल्यू

जेसी-219555ए, सूबेदार नेलशन पी, 4826एल, इंजीनियर्स
आईईबी/आर/एसडब्ल्यू

जेसी-199953एक्स, सूबेदार गिरीश कुमार, 4827एन, इंजीनियर्स
आईईई/एम/आईईएम

जेसी-325662एम, सूबेदार सतेन्द्र, 4828डब्ल्यू, इंजीनियर्स
आईईबी/आर/एसडब्ल्यू

जेसी-199973एल, सूबेदार धर्मवीर सिंह 4829वाई, इंजीनियर्स
आईईबी/आर/एसडब्ल्यू

जेसी-327156ए, सूबेदार एम के नारायणन, 4830एन, इंजीनियर्स
आईईबी/आर/एसडब्ल्यू

जेसी-325679ए, सूबेदार पवन कुमार, 4831डब्ल्यू, इंजीनियर्स
आईईई/एम/आईईएम

जेसी-803078एक्स, नायब सूबेदार, ललित पाण्डेय, 4832वाई, आईसी/
आरओ

जेसी-834348एच, नायब सूबेदार, राजेन्द्र सिंह, 4833एफ,
एवीएस/आरओ

जेसी-307018एक्स, नायब सूबेदार, ए क्रिस्ती बेस्की, 4834के,
इंजीनियर्स/आरओ

जेसी-439079एक्स, नायब सूबेदार संजय भट्टाचार्य, 4835एम,
इन्फैन्ट्री/आरओ

जेसी-756407पी, नायब सूबेदार कृष्णन एन, 4836पी, ईएमई/ईएमई

जेसी-757421एन, नायब सूबेदार राधाकृष्णन नायर पी आर,
4837एक्स, ईएमई/ईएमई

जेसी-758020डब्ल्यू, नायब सूबेदार सुधीर प्रकाश वी के, 4838ए,
ईएमई/ईएमई

जेसी-758463एम, नायब सूबेदार मृणाल कान्ति घड़ा, 4839एच,
ईएमई/ईएमई

जेसी-758340ए, नायब सूबेदार रामनिवास बेनिवाल, 4840एक्स,
ईएमई/ईएमई

जेसी-330387एफ, नायब सूबेदार चौधरी उत्तम प्रभाकर, 4841ए,
इंजीनियर्स आईईबी/आर/एसडब्ल्यू

जेसी-330455के, नायब सूबेदार बाहुलियन पिल्लै आर, 4842एच,
इंजीनियर्स आईईई/एम/आईईएम

सं. 14269145डब्ल्यू, हवलदार तेजवीर, 4843एल, सिगनल्स/
साइफर

सं. 6923494एच, हवलदार संजीवन चंगाट, 4844एन, एओसी/
आरओ

सं. 14570372एफ, हवलदार, बी श्रीनिवास राव, 4845डब्ल्यू,
ईएमई/आरओ

सं. 9511957पी, हवलदार राजवीर सिंह, 4846वाई, आईसी/आरओ

सं. 15359258डब्ल्यू, हवलदार अय्यपन टी, 4847एफ, सिगनल्स/
आरओ

सं. 2986112के, हवलदार प्रेमन टी वी, 4848के, इन्फैन्ट्री/आरओ

सं. 6389152एक्स, हवलदार अमन कलेत, 4849एम एससी/
आरओ

सं. 6390660ए, हवलदार अजय कुमार, 4850एफ, एससी/आरओ

सं. 6391269पी, हवलदार युवराज सिंह ठाकुर, 4851के, एससी/
आरओ

सं. 13751187एम, हवलदार देशराज कौंडल, 4852एम, एससी/
आरओ

सं. 14600157एन, हवलदार सैमसन डी विक्टोरिया, 4853पी,
एससी/आरओ

सं. 6929537एच, हवलदार संजय कुमार महापात्रा, 4854एक्स,
एससी/आरओ

सं. 6386857वाई, हवलदार राजेन्द्र कुमार, 4855ए, एससी/आरओ

सं. 15306357एक्स, हवलदार विजय कुमार एस, 4856एच,
इंजीनियर्स/एओ

सं. 2882904एक्स, हवलदार हरजीत सिंह, 4857एल, इन्फैन्ट्री/
आरओ

सं. 6388000के, हवलदार गिरीश जोशी, 4858एन, एससी/
आरओ

सं. 6482410वाई, हवलदार ए कुमार, 4859डब्ल्यू, एससी/आरओ

सं. 15359819ए, हवलदार एम श्रीनिवासा रेड्डी, 4860एल, मेक/
आरओ

सं. 6389090एच, हवलदार अजय कुमार, 4861एन, एससी/
आरओ

- सं. 5752228एम, हवलदार मूलचन्द गुजर, 4862डब्ल्यू, इन्फैन्ट्री/आरओ
- सं. 15114646एक्स, हवलदार हबीब एस, 4863वाई, एडीआर्टी/आरओ
- सं. 6929627के, हवलदार पी रेडप्पा, 4864एफ, एओसी/आरओ
- सं. 14404250एच, हवलदार शिव कुमार पी, 4865के, एएससी/आरओ
- सं. 6392120ए, हवलदार मनोज कुमार पाल, 4866एम, एएससी/आरओ
- सं. 4072893एन, हवलदार देवेन्द्र सिंह नेगी, 4867पी, एएससी/आरओ
- सं. 6388898एफ, हवलदार जी एन वामुदेव, 4868एक्स, एएससी/आरओ
- सं. 6389042एच, हवलदार महेश इन्दर, 4869ए, एएससी/आरओ
- सं. 13691158एल, हवलदार रवि नारायण पदि, 4870पी, इन्फैन्ट्री/आरओ
- सं. 9095917एन, हवलदार गुरचरण सिंह चिब, 4871एक्स, इन्फैन्ट्री/आरओ
- सं. 6389311के, हवलदार जितेन्द्र कुमार देवांगन, 4872ए, एएससी/आरओ
- सं. 6389280पी, हवलदार बिबेकानन्द पट्टनायक, 4873एच, एएससी/आरओ
- सं. 1583217वाई, हवलदार मशहूर विश्वकर्मा, 4874एल, इंजीनियर्स/आरओ
- सं. 1490231वाई, हवलदार विनोद कुमार सांगवान, 4875एन, एएससी/आरओ
- सं. 6388977डब्ल्यू, हवलदार प्रमोद सिंह अत्री, 4876डब्ल्यू, एएससी/आरओ
- सं. 14608456एफ, एचएमटी ए एम मुस्तफा, 4877वाई, ईएमई/ईएमएई
- सं. 15381963पी, हवलदार अजय ध्यानी, 4878एफ, सिगनल्स/आरओ
- सं. 14380221एम, हवलदार श्रीनिवासन के एन, 4879के, एडीआर्टी/आरओ
- सं. 1578506के, हवलदार बिक्रम सिंह, 4880वाई, इंजीनियर्स आईईई/एम/आईईएम
- सं. 1575272ए, हवलदार सलविन्दर सिंह, 4881एफ, इंजीनियर्स आईईई/एम/आईईएम
- सं. 1490525एम, हवलदार सुशील कुमार, 4882के, ईएमई/आरओ

सं. 15302142एफ, हवलदार सुधाकरन पी आर, 4883एम, इंजीनियर्स आईई/बी/आर/एसडब्ल्यू

सं. 15367466ए, लान्स हवलदार एस श्रीनिवासा राव, 4884पी, सिगनल्स/आरओ

सं. 15372241एफ, लान्स हवलदार विजय कुमारन के पी, 4885एक्स, सिगनल्स/आरओ

सं. 15368639वाई, लान्स हवलदार एम यतीश्वर, 4886ए, सिगनल्स/आरओ

सं. 1579600ए, नायक खेम चन्द, 4887, इंजीनियर्स/आईओपी

सं. 15462489एम, एल डी एम जिवन सिंघा, 4888एल, एसी/आरओ

सं. 15115865एल, लान्स हवलदार कामीरकर मोला दस्तगिर, 4889एन, आर्टी/आरओ

एस. के. शर्मा
लेफ्टिनेंट कर्नल
सहायक सेना सचिव
एमएस 8बी

कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा/डीजी-3डी

सं. 164, दिनांक 8 मार्च 2006--राष्ट्रपति, महोदय निम्नलिखित अधिकारी को रक्षा मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण संगठन में महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) (वर्ग क राजपत्रित) के पद पर उनके नाम के सामने दी गयी तिथि से अगला आदेश जारी होने तक अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। वे दो वर्ष की अवधि के लिए परखाधीन रहेंगी।

डा. (श्रीमती) रितु चौधरी, 14 दिसम्बर 2005 (पूर्वाह्न)

अमर नाथ सिन्हा
उप निदेशक/डीजी-3डी

सं. 165, दिनांक 3 मार्च 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियों नामों के आगे दी गई तारीखों से करते हैं :- नौसेना अनुदेश 15/69 देखें।

भारतीय नौसेना
स्थायी काडर

मास्टर चीफ पेटी अफसर प्रथम श्रेणी के रैंक में

नाम, निजी सं., रैंक तथा तारीख

लक्ष्मी नारायण खास, 097647ए, एमसीपीओ 1 यू डब्ल्यू 1, 01.04.2004

देविन्द्र सिंह, 103654वी, एमसीपीओ 1 आर सी 1, 01.04.2004

करण सिंह राणा, 103171वाई, एमसीपीओ 1 पी टी 1, 01.04.2004

ओंकार सिंह, 104337एफ, एमसीपीओ 1 यू डब्ल्यू 1, 01.04.2004

- जसवंत सिंह वैश्ट, 104918ए, एमसीपीओ 1 पी टी 1, 01.04.2004
- टी मनी जोसफ, 104954एच, एमसीपीओ 1 आर पी 1, 01.04.2004
- राम अवतार राम, 105172बी, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.04.2004
- प्यारे लाल, 105205बी, एमसीपीओ 1 आर सी 1, 01.04.2004
- भोसले डी नारायण, 107200एन, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.04.2004
- सतबीर सिंह, 108256एन, एमसीपीओ 1 यू डब्ल्यू 1, 01.06.2004
- बाग चंद, 109291आर, एमसीपीओ 1 आर सी 1, 01.11.2004
- परशितल कुमार सौंदल, 109336टी, एमसीपीओ 1 आर सी 1, 01.07.2004
- जयपाल सिंह, 109671बी, एमसीपीओ 1 यू डब्ल्यू 1, 01.07.2004
- सुरेन्द्र कुमार साहू, 110380आर, एमसीपीओ 1 जी आई (डब्ल्यू) 01.11.2004
- बिमल कुमार सतापति, 140773आर, एमसीपीओ 1 आर पी 1, 01.04.2004
- सतीश कुमार शर्मा, 141065बी, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.04.2004
- गुरुपाल सिंह बंसल, 141144एच, एमसीपीओ 1 आर सी 1, 01.04.2004
- सत्यपाल एस चौहान, 141916एन, एमसीपीओ 1 आर सी 1, 01.04.2004
- राम किशोर, 141982एन, एमसीपीओ 1 यू सी 1, 01.05.2004
- मानिक लाल काला, 141988ए, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.04.2004
- दिवाकर प्रसाद यादव 142217वाई, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.11.2004
- हरीश चन्द्रा, 142442एच, एमसीपीओ 1 यू सी 1, 01.04.2004
- संजय कुमार साह, 142569वाई, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.04.2004
- निरंजन परमानिक, 142668, एमसीपीओ 1 यू सी 1, 01.07.2004
- मोहन सिंह, 142973आर, एमसीपीओ 1 यू सी 1, 01.06.2004
- निहाल सिंह, 143064वाई, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.11.2004
- दीप चन्द, 143354एफ, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.06.2004
- कौशल किशोर मिश्रा, 143561ए, एमसीपीओ 1 आरपी 1, 01.05.2004
- राम प्रकाश सिंह, 143564एच, एमसीपीओ 1 आरसी 1, 01.12.2004
- जगदीश सिंह, 143926एफ, एमसीपीओ 1 यूडब्ल्यू 1, 01.08.2004
- अमरीक सिंह, 144005के, एमसीपीओ 1 पीटी 1, 01.05.2004
- धर्म बीर, 144355एफ, एमसीपीओ 1 आरसी 1, 01.04.2004
- अश्वीनी कुमार, 144469आर, एमसीपीओ 1 आरसी 1, 01.07.2004
- सतपाल तुरफानिआ, 146073के, एमसीपीओ 1 जीआई (एस), 01.11.2004
- रूपा मुरली, 168128ए, एमसीपीओ 1 पीटी 3, 01.07.2004
- बेजु ई गोपीनाथन, 173328बी, एमसीपीओ 1 पीटी 2, 01.07.2004
- एस एम नेगी, 200172एन, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.04.2004
- गुलशन कुमार शर्मा, 200184आर, एमसीपीओ 1 यूसी 1, 01.04.2004
- सुभाष चन्द्र लाल, 200563ए, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.04.2004
- गिरीश चन्द्र, 201410ए, एमसीपीओ 1 पीटी 1, 01.04.2004
- देश राज, 201531ए, एमसीपीओ 1 सीडी 1, 01.04.2004
- जगदीश प्रसाद, 203572आर, एमसीपीओ 1 आरपी 1, 01.04.2004
- हरेन्द्र तिवारी, 203594आर, एमसीपीओ 1 आरसी 1, 01.04.2004
- बलभद्र पाण्डा, 203620जेड, एमसीपीओ 1 क्यू 1, 01.04.2004
- राकेश सिंह, 203699बी, एमसीपीओ 1 आरपी 1, 01.10.2004
- मन मोहन सिंह, 203919बी, एमसीपीओ 1 यूसी 1, 01.05.2004
- नथू राम, 204353आर, एमसीपीओ 1 क्यू ए 1, 01.04.2004
- राज पाल सिंह, 141255के, एमसी एटी आर्मस 1, 01.08.2004
- रिद्धा लाल, 107786डब्ल्यू, एमसीपीओआर टीईसी 1, 01.06.2004
- सुरेन्द्र सिंह फोगट, 202226एफ, एमसीपीओआर टीईसी 1, 01.05.2004
- ब्रजेन्द्र के उपाध्याय, 202255वाई, एमसीपीओआर टीईसी 1, 01.07.2004
- शशि भूशन प्रसाद, 109381डब्ल्यू, एमसीपीओआर टीईएल 1, 01.09.2004
- रवन केपी, 144163डब्ल्यू, एमसीपीओआर टीईएल 1, 01.08.2004
- वीएन ससीधरन पिल्लई, 202611एफ, एमसीपीओआर टीईएल 1, 07.12.2004
- नादियामोहन पट्टनायक, 204205बी, एमसीपीओआर टीईएल 1, 01.05.2004
- विनोद कुमार उपाध्याय, 143598के, एमसीपीओआर एसपीएल 1, 24.08.2004
- घारा राम, 141439बी, एमसीपीओ एमए 1, एल टेक. 01.04.2004
- उवेश कुमार, 141452एच, एमसीपीओ एमए 1 आर टेक, 01.07.2004
- नरेन्द्र कुमार सिंह, 142049आर, एमसीपीओ एमए 1 ए एन 1, 01.04.2004

कामेश्वर गिरी, 142727एफ, एमसीपीओ एमए 1 एम एस 1, 01.12.2004
 सुरेश कुमार राय, 142866वाई, एमसीपीओ एमए 1 एच 1, 01.10.2004
 देवराज जामवाल, 107336वाई, एमएससीपीओ 1, 01.05.2004
 केसर सिंह चौहान, 107578वाई, एमएससीपीओ 1, 01.05.2004
 बबरूवाहन सावंत, 107983टी, एमएससीपीओ 1, 01.05.2004
 राजकुमार, 141548ए, एमएससीपीओ 1, 01.05.2004
 अनिल कुमार यादव, 110497एफ, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 1, 01.04.2004
 सल्वारराज टी, 146004बी, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 1, 01.04.2004
 विरेन्द्र सिंह, 146032टी, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 1, 01.04.2004
 बाबू के के, 146981जेड, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 1, 01.10.2004
 एस बालाजी भोलकर, 143694बी, एमसीपीओ एस टी डी 1, 01.04.2004
 बालम राम, 105113डब्ल्यू, एमसीपीओ सीके (ओ) 1, 01.05.2004
 बिमलोन्दू राय, 106972डब्ल्यू, एमसीपीओ सीके (ओ) 1, 01.08.2004
 ब्रिजेश सिंह, 140180टी, एमसीपीओ सीके (एस) 1, 01.04.2004
 तारा चन्द, 140305ए, एमसीपीओ सीके (एस) 1, 01.04.2004
 बालाराम नन्दी, 140308एच, एमसीपीओ सीके (एस) 1, 01.04.2004
 टी वरगिस जेवियर, 140646ए, एमसीपीओ सीके (एस) 1, 01.04.2004
 बरम पाल, 103795जेड, एमसीपीओ टोप 1, 01.04.2004
 गोविन्द सिंह, 188071के, एमसीपीओएमयूएस 1, 01.04.2004
 मदन लाल राणा, 107946एच, एमसीए ए एच 1, 01.04.2004
 अरविन्द कुमार, 108261जेड, एमसीए ए एच 1, 01.09.2004
 रमेश चन्द मेहता, 142591वाई, एमसीए एम ए टी 1, 01.07.2004
 धन्ना राम नायक, 107843जेड, एमसी ईएलए 1, 01.04.2004
 जे एस बोहरा, 143183टी, एमसी ईएलए 1, 01.04.2004
 हनुमान राम, 108122एच, एमसी ईएलएआर 1, 01.04.2004
 राजगोपालन नायर के, 144994एच, एमसीपीओ ए एफ 1, 01.04.2004
 बी चन्द्रा बहरा, 110600आर, एमसीपीओ एओएफ 1, 01.05.2004
 विरेन्द्र कुमार सिंह, 148337एफ, एमसीपीओ एओएफ 1, 01.10.2004
 पी कुमार यादव, 187352ए, एमसी ए 1, 01.04.2004

सी के उन्निकृष्णन, 187603वाई, एससी ए 1, 01.04.2004
 आई वी एस कुशवाहा, 192057डब्ल्यू, एमसी ए 1, 01.04.2004
 राजकुमार, 192428एन, एमसी ए 1, 01.04.2004
 ललन प्रसाद, 192496टी, एमसी ए 1, 01.04.2004
 सी सिंह राठौर, 192541डब्ल्यू, एमसी ए 1, 01.04.2004
 श्री कुमार के, 111985ए, एमसी एम 1, 01.04.2004
 ओमप्रकाश यादव, 149146एच, एमसी एम 1, 01.04.2004
 एन भुषणा, 187539ए, एमसी ए (डब्ल्यू) 1, 01.09.2004
 धनंजय चकवृति, 187173डब्ल्यू, एमसीई ए 1, 01.04.2004
 अजय कुमार यादव, 192019एच, एमसीई ए 1, 01.04.2004
 राम इकाबल राय, 192235जेड, एमसीई ए 1, 01.04.2004
 श्रीकांत, 192363आर, एमसीई ए 1, 01.04.2004
 सारिका वैकटेश्वर, 187648जेड, एमसीई एआर 1, 01.04.2004
 एस कलयाणा रामन, 192316एच, एमसीई एआर 1, 01.04.2004
 शेर सिंह गुर्जर, 192379ए, एमसीई एआर 1, 01.04.2004
 सामसन फेबर, 109849एच, एमसीईएलआर 1, 01.06.2004
 रामकुमार साह, 110686के, एमसीईएलआर 1, 08.07.2004
 रमेश चन्द्रा, 111194आर, एमसीईएलआर 1, 28.07.2004
 ऋषि कुमार दास, 141054वी, एमसीईएलआर 1 01.05.2004
 हरगोपाल सिंह, 143388एच, एमसी एम ई 1, 01.12.2004
 सोहन सिंह, 144557आर, एमसी एम ई 1, 01.11.2004
 गोपाल सिंह राजपूत, 187615जेड, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
 परसाना कुमार पीजे, 187621एन, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
 रामा मूर्ति एच के, 187630एच, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
 कपिलेश्वर साहू, 187644आर, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
 अकबर अली, 187658वाई, एमसी ई आर ए 1, 01.11.2004
 साबू थोमस, 187659जेड, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
 कुपुसमी बेलूसामी, 187660ए, एमसी ई आर ए 1, 01.09.2004
 जुवि थोमस जे, 187662एफ, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
 वेनुगोपाल जी, 187667टी, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
 पी ए जाय, 187668डब्ल्यू, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
 सोमन सरकार, 187670जेड, एमसी ई आर ए 1, 01.11.2004
 थोमस कुटी केके, 187672बी, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
 कान्डीकटला एस राजू, 187673एफ, एमसी ई आर ए 1, 01.10.2004
 टीवी अरविन्दाकशन, 187675के, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004

- गिदला अबराहम पाल, 187677आर, एमसी ई आर ए 1, 01.08.2004
- माने दनानेश्वर एस, 187678टी, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
- विजय एस त्रिपाठी, 191756के, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
- महात्म राम, 191906ए, एमसी ई आर ए 1, 01.04.2004
- प्रकाश चन्द्रा, 197036के, एमसी ई ए पी 1, 02.04.2004
- परमेश्वर सिंह, 197157के, एमसी ई ए पी 1, 01.07.2004
- के सिंह, 110124एच, एमसी एमईसीएच (पी) 1, 01.04.2004
- इलायकेदार यादव, 111283टी, एमसी एमईसीएच (पी) 1, 01.09.2004
- उमा रेड्डी देवाकर, 146399ए, एमसी एमईसीएच (पी) 1, 01.04.2004
- हुसैन कुमार, 147794वाई, एमसी एमईसीएच (पी) 1, 01.10.2004
- चन्द्रशेखर सिंह, 148839वाई, एमसी एमईसीएच (पी) 1, 01.11.2004
- राम सुरमन अहीर, 192008एच, एमसी एमईसीएच (आर) 1, 01.04.2004
- ग्यानेन्द्र पाल सिंह 110583ए, एमसी एमईसीएच (आर) 1, 01.04.2004
- विजेन्द्र सिंह 111680डब्ल्यू, एमसी एमईसीएच (आर) 1, 01.04.2004
- जगदेव सिंह, 146290वी, एमसी एमईसीएच (आर) 1, 01.04.2004
- बाबूराम बिश्नोई, 147411ए, एमसी एमईसीएच (आर) 1, 01.04.2004
- राम नारायण प्रसाद, 147610बी, एमसी एमईसीएच (आर) 1, 01.04.2004
- बातुला एस विनय कुमार, 187403टी, एमसी एसडब्ल्यूए 1, 01.04.2004
- सुजान सिंह, 187410एच, एमसी एसडब्ल्यूए 1, 01.04.2004
- एम के साजू, 187639बी, एमसी एसडब्ल्यूए 1, 01.04.2004
- सुरेन्द्र काण्डा, 191713एन, एमसी एसडब्ल्यूए 1, 01.04.2004
- मास्टर चीफ पेटी अफसर द्वितीय श्रेणी के रैंक में
नाम, निजी सं., रैंक तथा तारीख
के सम्मत कुमार गोपू, 111647डब्ल्यू, एमसीपीओ 11 आरसी 1, 01.04.2004
- रविन्द्र कुमार, 112296डब्ल्यू, एमसीपीओ 11 यूडब्ल्यू 1, 01.05.2003
- रति राम, 112371आर, एमसीपीओ 11 क्यूए 1, 01.11.2003
- राम नारायण चटर्जी, 112586वी, एमसीपीओ 11 यूडब्ल्यू 1, 01.04.2004
- राजनाथ सिंह यादव, 112939एफ, एमसीपीओ 11 पी आर 1, 01.04.2004
- अशोक कुमार त्रिवेदी, 113062के, एमसीपीओ 11 यूडब्ल्यू 1, 01.04.2004
- सत्यनारायण सिंह, 113121डब्ल्यू, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.06.2004
- सुनिल कुमार गुप्ता, 113149एच, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.11.2004
- नरेश कुमार शर्मा, 113305एन, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.05.2004
- संतोष कुमार, 113322ए, एमसीपीओ 11 एएसडब्ल्यू आई (एस), 01.07.2004
- लक्ष्मण जाटी, 113507वाई, एमसीपीओ 11 आरसी 1, 01.06.2004
- राजेन्द्र सिंह, 113547एन, एमसीपीओ 11 आरपी 1, 01.08.2004
- राम सिंह शेखावत, 113583डब्ल्यू, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.04.2004
- रमेश कुमार यादव, 113616डब्ल्यू, एमसीपीओ 11 आरपी 1, 01.04.2004
- ओंकेश्वर मिश्रा, 113619ए, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.07.2004
- वेद प्रकाश पाण्डे, 113727वाई, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.04.2004
- पवन कुमार, 113743एच, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.05.2004
- रमेश राय, 113942के, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.04.2004
- विजय केशवन, 114021आर, एमसीपीओ 11 एएसडब्ल्यू आई (डब्ल्यू), 01.08.2004
- मोहन मलाना, 114154टी, एमसीपीओ 11 जीआई (डब्ल्यू), 01.07.2004
- धर्मपाल, 114283के, एमसीपीओ 11 एस आर 1, 01.04.2004
- रामपाल कौशिक, 147992वाई, एमसीपीओ 11 आरसी 1, 01.04.2004
- शराफत अली शेख, 148074एच, एमसीपीओ 11 आरसी 1, 01.11.2004
- रविन्द्र कुमार सिंह, 148696वाई, एमसीपीओ 11 एएसडब्ल्यू आई (डब्ल्यू) 01.08.2004
- दिनेश सिंह, 149527के, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.04.2004
- कैलाश नाथ सिंह, 149937टी, एमसीपीओ 11 यूसी 1, 01.04.2004

सुरेश प्रसाद, 149949डब्ल्यू, एमसीपीओ 11 एसडब्ल्यू आई (एस),
01.05.2004

निताई रमन दास, 160183वी, एमसीपीओ 11 यूसी 1, 01.04.2004

गिरिश चन्द्र जोशी, 160208के, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1,
01.04.2004

काली राम, 160236जेड, एमसीपीओ 11 पीटी 1, 01.04.2004

नरेन्द्र सिंह, 160640टी, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.04.2004

अखिलेश्वर यादव, 160752वाई, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1,
01.04.2004

कुलविन्दर सिंह, 160777वी, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.04.2004

तिवारी विजय शंकर, 160791के, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1,
01.06.2004

कृष्णन प्रतापन, 160962जेड, एमसीपीओ 11 आरपी 1, 01.04.2004

निकुंजा किशोर साहू, 160984जेड, एमसीपीओ 11 जीआई (डब्ल्यू),
01.04.2004

पी चन्द्रा महापात्रा, 161126वाई, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1,
01.04.2004

लाल मनी, 161206वी, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1, 01.05.2004

कुलदीप सिंह 161254एन, एमसीपीओ 11 आरसी 1, 01.07.2004

सुभाष चन्द्र वेहेरा, 161396के, एमसीपीओ 11 क्यू ए 1,
01.04.2004

सीताराम सिंह, 161492पी, एमसीपीओ 11 आरसी 1, 01.06.2004

धर्मवीर, 161548एफ, एमसीपीओ 11 पीटी 1, 01.04.2004

जितेन्द्र सिंह, 161629आर, एमसीपीओ 11 यूसी 1, 01.04.2004

महेन्द्रा आर भारद्वाज, 161735एफ, एमसीपीओ 11 यूडब्ल्यू 1,
01.04.2004

हरि राम, 162012के, एमसीपीओ 11 यूडब्ल्यू 1, 01.04.2004

त्रिलोक सिंह इन्दोलिया 162041ए, एमसीपीओ 11 एसडब्ल्यू
(एस), 01.04.2004

मदन मोहन सिंह, 162246टी, एमसीपीओ 11 जीआई (डब्ल्यू),
01.04.2004

राम अधर, 162307एफ, एमसीपीओ 11 जीआई (एस),
01.07.2004

राम सजीवन 162317वी, एमसीपीओ 11 आरसी 1, 01.10.2004

अर्जुन सिंह यादव, 162458जेड, एमसीपीओ 11 यूडब्ल्यू 1,
01.04.2004

राम करण, 162814एच, एमसीपीओ 11 पी आर 1, 01.04.2004

अनिल कुमार, 162936के, एमसीपीओ 11 यूडब्ल्यू 1, 01.04.2004

लीलाधर चौहान 162996वाई, एमसीपीओ 11 पी आर 1,
01.04.2004

त्रिलोक सिंह नेगी, 163088एफ, एमसीपीओ 11 पी आर 1,
01.04.2004

हरि बक्श सिंह, 163629के, एमसीपीओ 11 पी आर 1,
01.11.2004

दीप कुमार खण्डपाल, 112551जेड, एमसी ऐट आर्म्स 11,
01.08.2004

बलवान सिंह, 149206एफ, एमसी ऐट आर्म्स 11, 01.06.2004

प्रेम कुमार गुप्ता, 149291जेड, एमसी ऐट आर्म्स 11, 01.06.2004

प्रह्लाद सिंह, 149619डब्ल्यू, एमसी ऐट आर्म्स 11, 01.04.2004

संजय कुमार सिंह, 114667एच, एमसीपीओ आर टेक 11,
01.05.2004

चन्द्रपाल गिरी, 147103ए, एमसीपीओ आर टेक 11, 01.08.2004

नन्द कुमार सिंह, 148194एफ, एमसीपीओ आर टेक 11, 01.04.2004

राजेन्द्र कुमार सिंह, 149513वी, एमसीपीओ आर टेक 11,
01.04.2004

सतिशन एन, 160825एन, एमसीपीओ आर टेक 11, 01.04.2004

लालजी पाल, 162138वाई, एमसीपीओ आर टेक 11, 01.04.2004

संतोष कुमार उपाध्याय, 163075ए, एमसीपीओ आर टेक 11,
01.04.2004

नरेन्द्र सिंह, 111406वाई, एमसीपीओ आर टेल 11, 01.04.2004

राजेन्द्र पी शर्मा, 113588एफ, एमसीपीओ आर टेल 11, 01.04.2004

सुरेश कुमार, 113924डब्ल्यू, एमसीपीओ आर टेल 11, 01.05.2004

नारायण एस धामी, 114787एफ, एमसीपीओ आर टेल 11,
01.04.2004

अशोक कुमार पाटी, 148215वी, एमसीपीओ आर टेल 11,
01.04.2004

अवध विहारी, 160478जेड, एमसीपीओ आर टेल 11,
01.04.2004

शंकर नाजीर, 161070डब्ल्यू, एमसीपीओ आर टेल 11,
01.07.2004

गिरिजा रमन पाण्डे, 161341के, एमसीपीओ आर टेल 11,
01.04.2004

हर भगत, 161580वी, एमसीपीओ आर टेल 11, 01.06.2004

वैदेही शरण शुकला, 162791एफ, एमसीपीओ आर टेल 11,
01.07.2004

दयाराम सैनी, 162939टी, एमसीपीओ आर टेल 11, 01.09.2004

- जसवंत सिंह, 162205जेड, एमसीपीओ आर एसपीएल 11, 01.04.2004
- चन्द्रशेखर प्रसाद, 111810आर, एमसीपीओ एमए 11 एल 1, 01.04.2004
- राकेश कुमार, 111918के, एमसीपीओ एमए 11 ओआरटी 1, 01.07.2004
- गोपाल दूबे, 112310ए, एमसीपीओ एमए 11 ओआरटी 1, 01.10.2004
- गनवीर सिंह, 148302ए, एमसीपीओ एमए 11 पीएचए 1, 01.04.2004
- नन्द लाल 148592के, एमसीपीओ एमए 11 एमएस 1, 01.04.2004
- नवाब सिंह, 148746के, एमसीपीओ एमए 11 एल 1, 01.12.2004
- दिनेश सिंह, 109978ए, एमएस सीपीओ 11, 01.05.2004
- टी पी अब्राहम, 110010जेड, एमएस सीपीओ 11, 01.05.2004
- कृपाशंकर एस यादव, 110154ए, एमएस सीपीओ 11, 01.05.2004
- सत्यव्रत, 111541वी, एमएस सीपीओ 11, 01.05.2004
- रनवीर एस शेखावत, 112361टी, एमएस सीपीओ 11, 01.11.2004
- शकील अहमद खान, 144945वाई, एमएस सीपीओ 11, 01.05.2004
- राजेश्वर चान्द, 149220एन, एमएस सीपीओ 11, 01.08.2004
- ओमपाल सिंह, 149772टी, एमएस सीपीओ 11, 01.05.2004
- दिनेश कुमार सिंह, 112476वी, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 11, 01.10.2004
- रविन्द्रन के 149032के, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 11, 01.04.2004
- रामचन्द्र 149064एच, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 11, 01.04.2004
- नथूराम 149218एच, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 11, 01.04.2004
- सुरेश सिंह, 149702एच, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 11, 01.04.2004
- सुधाकर, 160847एन, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 11, 01.04.2004
- राधेश्याम, 161219एच, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 11, 01.04.2004
- योगेन्द्र सिंह, 161942ए, एमसीपीओ डब्ल्यूटीआर 11, 01.07.2004
- पी मोहना महाराणा, 108424डब्ल्यू, एमसीपीओ एसटीडी 11, 01.08.2004
- सैजी मैथ्यू, 109247आर, एमसीपीओ एसटीडी 11, 01.11.2004
- मीर सिंह, 143847ए, एमसीपीओ एसटीडी 11, 01.10.2004
- शीश पाल सिंह, 108034एच, एमसीपीओ सीके (ओ) 11, 01.05.2004
- त्रिभूवन सिंह, 108080एन, एमसीपीओ सीके (ओ) 11, 01.08.2004
- विक्रम सिंह कुशवाहा, 108626वी, एमसीपीओ सीके (ओ) 11, 01.09.2004
- मनीन्द्र कुमार सिंह, 106539के, एमसीपीओ सीके (एस) 11, 01.10.2004
- फतेह बहादुर सिंह, 107243के, एमसीपीओ सीके (एस) 11, 01.10.2004
- अनू राम 107611वाई, एमसीपीओ सीके (एस) 11, 28.07.2004
- अमर चन्द्रा, 107563एन, एमसीपीओ टीओपी 11, 01.11.2004
- ओ जोय कुट्टी, 107854जेड, एमसीपीओ टीओपी 11, 01.10.2004
- श्यामलाल, 108017डब्ल्यू, एमसीपीओ टीओपी 11, 01.10.2004
- मोंगला हाजरा, 143769जेड, एमसीपीओ टीओपी 11, 01.10.2004
- राजेश कुमार तमन, 188144एच, एमसीपीओ एमयूएस 11, 01.04.2004
- चन्द्रपाल सिंह, 188153वाई, एमसीपीओ एमयूएस 11, 01.04.2004
- दीपक आनन्द अमोन्क, 188218डब्ल्यू, एमसीपीओ एमयूएस 11, 01.04.2004
- मृत्युन्जय चौधरी, 112578के, एमसीए (एच) 11, 01.04.2004
- बलविन्दर सिंह, 114143टी, एमसीए (एच) 11, 01.09.2004
- योगेन्द्र कुमार, 149507आर, एमसीए (एच) 11, 01.04.2004
- दयाल सिंह, 149988एच, एमसीए (एच) 11, 01.04.2004
- परिमल दास, 160112टी, एमसीए (एच) 11, 01.04.2004
- प्रदीप कुमार, 162954ए, एमसीए (एच) 11, 01.10.2004
- जितेन्द्र सिंह, 114647एन, एमसीए (एच) 11, 01.01.2005
- वेलावर्धिपति ए आर, 146402एच, एमसीए (एच) 11, 01.04.2004
- जगदीश सिंह नेगी, 164858वी, एमसी ईएलए 11, 01.04.2004
- जे सी पाण्डे, 165400के, एमसी ईएलए 11, 01.04.2004
- एस रघुनाथन, 165626जेड, एमसी ईएलएआर 11, 01.04.2004
- नसीब सिंह, 166007आर, एमसी ईएलएआर 11, 01.04.2004
- विशु प्रसाद, 166500के, एमसी ईएलएआर 11, 01.04.2004
- छेदी लाल यादव, 161725एच, एमसीपीओ ए एफ 11, 01.04.2004
- आर कीर्ति सिंह यादव, 162467डब्ल्यू, एमसीपीओ ए एफ 11, 01.04.2004
- राजेश कांत चौधरी 163395बी, एमसीपीओ ए एफ 11, 01.04.2004
- के सुरेश, 164842टी, एमसीपीओ ए एफ 11, 01.09.2004
- प्रवीन सी चौधरी, 166218डब्ल्यू, एमसीपीओ ए एफ 11, 01.04.2004
- भंवर सिंह फर्गेरिया, 162415ए, एमसीपीओ ए ओ एफ 11, 01.10.2004

- सुधीर पठानिया, 192896ए, एमसी ए ए 11, 01.04.2004
 श्रीभगवान पाठक, 193092वाई, एमसी ए ए 11, 01.04.2004
 नागालिंगम शिवा, 193123टी, एमसी ए ए 11, 02.04.2004
 अस्फाक अहमद, 193148जेड, एमसी ए ए 11, 01.04.2004
 पतिता पटनायक, 193334वाई, एमसी ए ए 11, 01.04.2004
 योगेश सिंह शेखावत 193340के, एमसी ए ए 11, 01.04.2004
 सोनी शेकसोन, 193341एन, एमसी ए ए 11, 01.10.2004
 सुरेन्द्र कुमार, 193357जेड, एमसी ए ए 11, 01.04.2004
 केशु सिंह कुशवाहा, 192787वी, एमसी ए ए (डब्ल्यू) 11, 01.04.2004
 धर्मेन्द्र सिंह, 193044एन, एमसी ए ए (डब्ल्यू) 11, 01.09.2004
 एल राजा राम बाहू, 114727डब्ल्यू, एमसी ए ए (डब्ल्यू) 11, 01.04.2004
 परशूराम राउत, 162727के, एमसी ए ए (डब्ल्यू) 11, 01.04.2004
 अशोक सिंह नेगी, 163642आर, एमसी ए ए (डब्ल्यू) 11, 01.04.2004
 अनिल कुमार एस, 197271डब्ल्यू, एमसी ई ए ए 11, 01.04.2004
 राजेन्द्र मिश्रा, 197332एच, एमसी ई ए ए 11, 01.04.2004
 पी वी वैनी, 197471जेड, एमसी ई ए ए 11, 01.04.2004
 महावीर सिंह राठौर, 197482जेड, एमसी ई ए ए 11, 01.04.2004
 वी एल शर्मा, 197261वाई, एमसी ई ए ए आर 11, 01.11.2004
 लक्ष्मन सिंह रावत, 113927ए, एमसी ईएलपी 11, 01.04.2004
 दलील सिंह, 114445वी, एमसी ईएलपी 11, 01.07.2004
 ए एस राठौर, 114533वी, एमसी ईएलपी 11, 01.01.2004
 राजिन्द्र कुमार, 114616टी, एमसी ईएलपी 11, 01.04.2004
 चुनचुन यादव, 149328एच, एमसी ईएलपी 11, 01.04.2004
 विजय कुमार यादव, 160339एच, एमसी ईएलपी 11, 01.04.2004
 राजेन्द्र सिंह, 161534जेड, एमसी ईएलपी 11, 01.04.2004
 ओमप्रकाश, 162243के, एमसी ईएलपी 11, 01.10.2004
 अनुप कुमार, 113496वाई, एमसी ईएलआर 11, 01.04.2004
 रामफूल 113615टी, एमसी ईएलआर 11, 01.04.2004
 दीन बंधू पाण्डे, 113997के, एमसी ईएलआर 11, 01.06.2004
 रावल शैलेश कुमार, 114298डब्ल्यू, एमसी ईएलआर 11, 08.07.2004
 भागिरतन सिंह चाहर, 114597जेड, एमसी ईएलआर 11, 28.07.2004
 उत्तेश कुमार दीक्षित, 161088के, एमसी ईएलआर 11, 01.04.2004
 भूपेन्द्र यादव, 161920ए, एमसी ईएलआर 11, 01.04.2004
 दीपचन्द पाण्डे, 161976वी, एमसी ईएलआर 11, 01.05.2004
 इन्द्रजीत, 110863एन, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 सुरेश कुमार, 112786एच, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 सुरेश बाबू एन, 113638डब्ल्यू, एमसी एमई 11, 01.06.2004
 योगेन्द्र कुमार, 113699एच, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 दुर्योधन सिंह, 114281एफ, एमसी एमई 11, 01.12.2004
 जय प्रकाश, 149417के, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 संदीप राय, 160679एफ, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 भगिरथी यादव, 160796वाई, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 रमेश कुमार, 161065एच, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 परेश चन्द्र राउत, 161826एन, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 राम सुन्दर सिंह, 162206ए, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 राम केत यादव, 163126टी, एमसी एमई 11, 01.04.2004
 अनिरुद्ध सिंह, 163419एच, एमसी एमई 11, 01.05.2004
 हरि शरण शर्मा, 166907के, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 राजेश कुमार, 168232वाई, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 जनार्धन बी, 168760वाई, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 मदन कुमार, 169278जेड, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 हरेन्द्र मिश्रा, 169324वी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 चौधरी टी किशन, 169726टी, एमसी ईआरए 11, 01.06.2004
 विमल कुमार ओझा, 169842एफ, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 वालीराम चंदेल, 170708जेड, एमसी ईआरए 11, 01.10.2004
 कैलाश चन्द्रा, 170963वी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 माकारा साहू, 171021के, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 राजेन्द्र सिंह, 171847एन, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 उमेश प्रताप सिंह, 172234टी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 दिल बहादुर छेत्री, 172502ए, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 वरुण कुमार मेहता, 173090एन, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 संतोष कुमार दाश, 173101एन, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 राकेश वर्मा, 192807जेड, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 मोहिन्दर पाल, 193153के, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
 मनजीत कुमार शर्मा, 193154एन, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004

विनोद कुमार, 193155आर, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	वृज मोहन सिंह, 193398टी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
जयवीर सिंह, 193196एच, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	गायकवाड डी श्रीरंग, 193399डब्ल्यू, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
अश्वीनि कुमार, 193204ए, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	दीपक विष्ट, 193401जेड, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
विनोद कुमार वारी, 193208के, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	पवन कुमार दूबे, 193402ए, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
सुरेन्द्र कुमार शर्मा, 193209एन, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	दीपक कुमार चौबे, 193403बी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
अजय सिंह वोहरा, 193214जेड, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	एस एम तैज्युदीन, 193404एफ, एमसी ईआरए 11, 02.04.2004
गुप्ता वी के रूल्दुराम, 193218एच, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	अनुराग सिरोही, 193408आर, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
पोपालघाट आर शंकर, 193225जेड, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	भीम सिंह यादव, 193409टी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
किशोर उद्धव जादव, 193230के, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	अरविंद कुमार दीक्षित, 193410डब्ल्यू, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
पी राजेश, 193247जेड, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	काले आर यशवंत राव, 193411वाई, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
साहुल हमिद एन, 193256डब्ल्यू, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	नीरज कुमार राय, 193414बी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
लाड अजय सुरेश, 193281ए, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	सुनिल कुमार, 193417के, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
रजनीश कुमार, 193305एफ, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	शिव चरण, 193420टी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004
अनिल वी जादव, 193306एच, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	अरूण कुमार सिंह, 112508ए, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
योगेश कुमार, 193310टी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	धर सिंह राठौर, 193214एफ, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
जसवीर सिंह, 193324जेड, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	जवाहर राय, 113530जेड, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
वी एस गिरिधर, 193325ए, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	राजेन्द्र सिंह दूबे, 113594डब्ल्यू, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
पुरूषोत्तम राम, 193337बी, एमसी ईआरए 11, 15.08.2004	उदय शंकर उपाध्याय, 113900आर, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
सुरेश कुमार, 193347ए, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	अशोक कुमार, 114128एच, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
राजबीर सिंह, 193349एफ, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	देवकी नंदन, 114250के, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
संजय कुमार, 193358ए, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	धर्मपाल, 114381एच, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
फिरोज खान, 193359बी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	एस रमेश, 114627टी, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
रूप सिंह, 193362के, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	बुद्धा एम राव, 114630जेड, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
कुन्दन सिंह नेगी, 193370बी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	मोरनादासन पी, 149038जेड, एमसी एमसीईएच 11, 01.11.2004
मनोज कुमार पाण्डे, 193371एफ, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	गुलाब सिंह, 150085बी, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
मोरे पराग सोपन, 193376टी, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	दुर्योधन प्रधान, 160882टी, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
सिद्धार्थ सरकार साहू, 193379जेड, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	कंजन कुमार नायक, 160986बी, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
द्विगेन्द्र कुमार, 193385एन, एमसी ईआरए 11, 01.11.2004	शिवकांत सिंह, 161289टी, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
हरमिन्दर जीत सिंह, 193386आर, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	शुनिल कुमार रेय, 161435जेड, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
नवीन कुमार यादव, 193388डब्ल्यू, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	लाल चन्द, 161522वाई, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
प्रदीप कुमार, 193391ए, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	विनोद कुमार, 162389टी, एमसी एमसीईएच 11, 01.04.2004
दिनेश बाबू, 193393एफ, एमसी ईआरए 11, 01.04.2004	
मनोज कुमार, 193394एच, एमसी ईआरए 11, 01.09.2004	

अश्वीनी कुमार, 163303डब्ल्यू, एमसी एमसीईएच 11, 01.06.2004
 राजीव कुमार मिश्रा, 163854वाई, एमसी एमसीईएच 11, 01.08.2004
 हेम कांत चेतिया, 164156एच,, एमसी एमसीईएच 11, 01.10.2004
 घणेश सिंह किरोला, 170432वाई, एमसी ईएपी 11, 01.04.2004
 शत्यावादी सुन्दरे, 173105वाई, एमसी ईएपी 11, 01.07.2004
 एम ए कोशी, 197512टी, एमसी ईएपी 11, 01.04.2004
 कुलदीप सिंह कटोच, 197619के, एमसी ईएपी 11, 01.04.2004
 परमजीत सिंह, 197686एन, एमसी ईएपी 11, 01.09.2004
 अपूर्वा कुमार चौधरी, 197688टी, एमसी ईएपी 11, 02.04.2004
 राकेश दत्त वलूनी, 197689डब्ल्यू, एमसी ईएपी 11, 01.04.2004
 विरेन्द्र कृष्णा, 197702जेड, एमसी ईएपी 11, 01.04.2004
 छान्द्रशेखर जोशी, 197704वी, एमसी ईएपी 11, 01.04.2004
 शुनिल कुमार दास, 197724जेड, एमसी ईएपी 11, 01.11.2004
 सुभाष चन्द्रा, 114520जेड, एमसी एमईसीएच पी 11, 02.04.2004
 भीष्म पाल, 163129जेड, एमसी एमईसीएच पी 11, 01.04.2004
 ए पोनमुदी, 163325डब्ल्यू, एमसी एमईसीएच पी 11, 01.04.2004
 इन्द्र सिंह, 163568वाई, एमसी एमईसीएच पी 11, 01.04.2004
 विनोद कुमार, 166293आर, एमसी एमईसीएच पी 11, 01.04.2004
 त्रिजेश कुमार राय, 197414डब्ल्यू, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 अनीरुद्ध शाजी, 197501टी, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 के वी अनिल कुमार, 197532एन, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 सुरेश कुमार शर्मा, 197533आर, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 राम सिंह, 197551एफ, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 अनिल कुमार दहिया, 197611टी, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 उमेश शर्मा, 197618एच, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 अखिलेश कुमार सिंह, 197634डब्ल्यू, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 परमजीत सिंह, 197651एच, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 वी चरण जुझार सिंह, 197658जेड, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 मनोज कुमार, 197661एफ, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 सुशिल शर्मा, 197671वी, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 रमेश कुमार, 197673एच, एमसी ईएआर 11, 01.04.2003

विशुनदेव पंडित, 197679वाई, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 नीरज कुमार एस राठौर, 197687आर, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 अनुपम सिंह त्यागी, 197701वाई, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 वी सेलीवान, 197709आर, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 विक्रम सिंह यादव, 197713जेड, एमसी ईएआर 11, 01.10.2004
 जगवीर सिंह, 197721टी, एमसी ईएआर 11, 01.12.2004
 रमेश चन्द्र यादव, 197722डब्ल्यू, एमसी ईएआर 11, 01.04.2004
 संतोष राज द्विवेदी, 193126जेड, एमसी एसडब्ल्यूए 11, 01.04.2002
 सरोज कुमार रथ, 193139वी, एमसी एस डब्ल्यूए 11, 01.04.2004
 कमल कांत राय, 19345147टी,, एमसी एसडब्ल्यूए 11, 01.04.2004
 गिरिश कुमार शुक्ला, 193179डब्ल्यू, एमसी एसडब्ल्यूए 11, 01.04.2004
 परेश महतो, 193205वी, एमसी एसडब्ल्यूए 11, 01.04.2004
 प्रकाश चन्द्रा पात्रा, 193231एन, एमसी एस डब्ल्यूए 11, 01.04.2004
 धन्य के एस चोहान, 193430आर, एमसी एस डब्ल्यूए 11, 01.04.2004
 कोरडे सी किषण, 193470एफ, एमसी एस डब्ल्यूए 11, 01.04.2004
 देश बन्धु शर्मा, 193472के, एमसी एस डब्ल्यूए 11, 01.04.2004
 हरिश चन्द्र कटोच, 193478जेड, एमसी एस डब्ल्यूए 11, 01.04.2004

जी. एस. ओधखासी
 अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 166, दिनांक 8 मार्च 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबंधों के तहत परखाधीन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना
 भूतपूर्व फ्लाईट कैंडेट फ्लाईंग अफसर रैंक में
 लेखा शाखा

फ्लाईंग अफसर अभिनव सेलोट (27768), 20 दिसम्बर 2003 से।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वासेमु/24745/4/पीपीओ/पीसी-1/184/डीएस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के उपबंधों के तहत औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन तथा विंग प्रदान करते हैं। ये अफसर औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन व विंग प्रदान करने की तारीख यानि कि 20 दिसम्बर 03 से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं।

भारतीय वायु सेना
उड़ान पायलट शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कौडेट फ्लाईंग अफसर रैंक में

फ्लाईंग अफसर रूपिनदर दीप कौर (27772), शलीजा धामी (27773), 20 दिसम्बर 2003 से।

संजीव श्रीवास्तव
विंग कमाण्डर
जेडीपीओ 3(डी)

(थल सेना शाखा)

सं. 167, दिनांक 2 मार्च 2006-- राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नियमित सेना
सेना चिकित्सा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (एस के टी)

सूबेदार सुक्लबसवर रॉय (जेसी-691237ए), 01 नवम्बर 2005

सूबेदार ए नारायण सामी (जेसी-691375एफ), 01 नवम्बर 2005

स्थायी सूबेदार क्लर्क (जीडी)

नायब सूबेदार सोबरन सिंह (जेसी-693041एल), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार हरीपाल (जेसी-693042एन), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-693043डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2005

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-693019ए), 01 दिसम्बर 2005

स्थायी सूबेदार (एस के टी)

नायब सूबेदार कल्याण सिंह जस्था (जेसी-692808ए), 01 नवम्बर 2005

नायब सूबेदार मदन पासवान (जेसी-692811ए), 01 नवम्बर 2005

स्थायी सूबेदार (आर टी)

नायब सूबेदार जितेन्द्र नाथ उपाध्याय (जेसी-691355एन), 01 दिसम्बर 2005

स्थायी सूबेदार (सेफ हास्पीटल)

नायब सूबेदार पंचानन विश्वास (जेसी-693400एन), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार नील कंठ (जेसी-693401डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (नं. 13975893डब्ल्यू अब जेसी-695186पी), 31 अक्टूबर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार सिंह (नं. 13954817डब्ल्यू अब जेसी-695213एन), 27 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 29 जुलाई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार श्री मोनेय के (नं. 13974905एन अब जेसी-695214डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जेनमेजय महतो (नं. 13957086वाई अब जेसी-695183एफ), 04 अक्टूबर 2005*

हवलदार राम बिनोद सिंह (नं. 13957270के अब जेसी-695216वाई), 24 नवम्बर 2005*

हवलदार सरवन कुमार (नं. 13957277एन अब जेसी-695184के), 04 अक्टूबर 2005*

हवलदार प्रकाश सिंह (नं. 13957313एन अब जेसी-695185एम), 03 अक्टूबर 2005*

हवलदार शम्भु नाथ अधिकारी (नं. 13957334के अब जेसी-695216वाई), 22 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार गहताबुद्दीन शेख (नं. 13957336पी अब जेसी-695217के), 20 दिसम्बर 2005*

हवलदार जयवीर सिंह (नं. 13957412डब्ल्यू अब जेसी-695218एम), 01 दिसम्बर 2005*

हवलदार विरेन्द्र सिंह (नं. 13957512एफ अब जेसी-695219पी), 06 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (नं. 13957614एक्स अब जेसी-695220के), 01 दिसम्बर 2005*

हवलदार पटेल हरी वदन दहया भाई (नं. 13957777एल अब जेसी-695221एम), 01 दिसम्बर 2005*

हवलदार कृपा शंकर दिक्षित (नं. 13957741एम अब जेसी-695222पी), 05 दिसम्बर 2005*

हवलदार बलबीर सिंह (नं. 13957955एच अब जेसी-695223एक्स), 01 दिसम्बर 2005*

हवलदार कृष्ण दासन पी पी (नं. 13958019ए अब जेसी-695224ए), 09 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एस के टी)

हवलदार ब्रिक्रम सिंह (नं. 13962008एल अब जेसी-695225एच),
13 दिसम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 16 अक्टूबर 2005 से दी जायेगी)

हवलदार वी वेनुगोपालन (नं. 13962052पी अब जेसी-695226एल),
14 नवम्बर 2005*

*(नायब सूबेदार के पद पर वेतन और भत्तों पर बिना प्रभाव डाले
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

रामचन्द्र रतूड़ी
अवर सचिव

सं. 168, दिनांक 3 मार्च 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष अनुदेश 2 एस 66
के परिशिष्ट संख्या 4 के अधीन निम्नलिखित पदोन्नति लेफ्टिनेंट से
कप्तान के रैंक में उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं जिन्हें
सेना में भर्ती होने से पूर्व पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातकोक्त की उपाधि
प्राप्त करने हेतु 12 माह की पूर्व वरिष्ठता प्रदान की जाती है :--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग

लेफ्टिनेंट से कप्तान के रैंक में

नं. रैंक और नाम, आर वी सी, भर्ती की दिनांक, पूर्व वरिष्ठता की
दिनांक तथा पदोन्नति की दिनांक कप्तान की

वी एस-1083एच लेफि दीपक वर्मा, आर वी सी, 13.09.2004, 13.
09.2003, 13.09.2004

वी एस-1084एल लेफि सुभाष चन्द्र पटियाल, आर वी सी, 13.09.
2004, 13.09.2003, 13.09.2004

वी एस-1087वाई लेफि मनोज कुमार भट्ट, आर वी सी, 13.09.
2004, 13.09.2003, 13.09.2004

वी एस-1088एफ लेफि गजेन्द्र सिंह राठौर, आर वी सी, 13.09.2004,
13.09.2003, 13.09.2004

वी एस-1089के लेफि सन्थोष एम, आर वी सी, 13.09.2004, 13.
09.2003, 13.09.2004

वी एस-1093एम लेफि परवेश सिंह, आर वी सी, 13.09.2004, 13.
09.2003, 13.09.2004

वी एस-1095एक्स लेफि अवधेश कुमार शर्मा, आर वी सी, 13.09.
2004, 13.09.2003, 13.09.2004

वी एस-1098एल लेफि विकास कुमार प्रधान, आर वी सी, 13.09.
2004, 13.09.2003, 13.09.2004

वी एस-1099एन लेफि योगेश सिंह, आर वी सी, 13.09.2004, 13.
09.2003, 13.09.2004

वी एस-1100एक्स लेफि मितेश मित्तल, आर वी सी, 13.09.2004,
13.09.2003, 13.09.2004

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
तोपखाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार राजेन्द्र सिंह (14345496एफ अब जेसी-268687एक्स),
05 अक्टूबर 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार शिव दयाल यादव (14482529एन अब जेसी-268688ए),
12 अक्टूबर 2005/13 अगस्त 2005*

हवलदार मधूकर शंकर बाधा (14490084एफ अब जेसी-
268689एच), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार राजन वाई (14372346पी अब जेसी-268690एक्स),
28 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार सगयाराज एफ (14389452के अब जेसी-268691ए),
16 नवम्बर 2005/04 सितम्बर 2005*

हवलदार जगवीर सिंह (14368960एम अब जेसी-268692एच),
28 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार एम डी मुजीबर रहेमान (14365694एन अब जेसी-
268693एल), 05 नवम्बर 2005/18 सितम्बर 2005*

हवलदार विरेन्द्र सिंह यादव (14395860एल अब जेसी-
268694एन), 18 अक्टूबर 2005/ 01 अक्टूबर 2005*

हवलदार राजेश सिंह चौहान (14482704एक्स अब जेसी-
268695डब्ल्यू), 19 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार अशोक शेरावत (14361588एक्स अब जेसी-268696वाई),
18 नवम्बर 2005

हवलदार अमर सिंह (14382790वाई अब जेसी-268697एफ),
18 नवम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

बी एच एम नफे सिंह (14404165ए अब जेसी-268698के),
22 नवम्बर 2005/02 अक्टूबर 2005*

हवलदार राम मेहर (14480621एन अब जेसी-268699एम),
06 दिसम्बर 2005/ 04 नवम्बर 2005*

हवलदार कृष्णा पाल (14478619एक्स अब जेसी-268700डब्ल्यू),
23 दिसम्बर 2005/21 नवम्बर 2005*

आर एच एम मनमोहन सिंह (14481818डब्ल्यू अब जेसी-
268701वाई), 12 दिसम्बर 2005/29 नवम्बर 2005*

बी एच एम इन्दरजीत (14371537एक्स अब जेसी-268702एफ),
12 दिसम्बर 2005/29 नवम्बर 2005*

आर एच एम मनोहर लाल (14387511एम अब जेसी-268671एस),
01 नवम्बर 2005/01 फरवरी 2005*

हवलदार एम सूदालई मूथू (14367273के अब जेसी-268672पी),
07 नवम्बर 2005/30 जून 2005*

हवलदार उत्तम कुमार सिन्हा (14363779एल अब जेसी-
268673एक्स), 19 सितम्बर 2005/06 जुलाई 2005*

हवलदार विजय पाल (14480524डब्ल्यू अब जेसी-268674ए),
28 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार प्रताप सिंह (14477262ए अब जेसी-268675एच),
07 नवम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

हवलदार दीपक कुमार झा (14481071एच अब जेसी-268676एल),
10 नवम्बर 2005/05 अगस्त 2005*

हवलदार पूरेन्द्र सिंह (14472131एल अब जेसी-268677एन),
01 नवम्बर 2005/18 अगस्त 2005*

हवलदार गोपाला कृष्णा पिल्ले के बी (14483909वाई अब जेसी-
268678डब्ल्यू), 03 नवम्बर 2005/30 अगस्त 2005*

हवलदार प्रदीप कुमार पी (14493905डब्ल्यू अब जेसी-
268679वाई), 03 नवम्बर 2005/30 अगस्त 2005*

बी एच एम रोहताश (14373247वाई अब जेसी-268680एन),
17 अक्टूबर 2005/31 अगस्त 2005*

हवलदार डी शनमुगम (14363884एफ अब जेसी-268681डब्ल्यू),
30 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार बूनेश्वर प्रसाद (14375017के अब जेसी-268682वाई),
19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

हवलदार शिवा प्रसाद बी (14494198के अब जेसी-268683एफ),
24 नवम्बर 2005/30 अगस्त 2005*

हवलदार बाबू रंजन नाथ (14364279ए अब जेसी-268684के),
22 नवम्बर 2005/11 सितम्बर 2005*

हवलदार सुधीर कुमार सिंह (14482739एन अब जेसी-268685एम),
03 नवम्बर 2005/06 अक्टूबर 2005*

आर एच एम अजाद पोददार (14369000ए अब जेसी-268686पी),
07 नवम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

एस. पी. शर्मा
अवर सचिव

सं. 169, दिनांक 7 मार्च 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना
स्थाई कमीशन
(सेना चिकित्सा कोर)

मेजर जनरल (व समकक्ष) से ले. जनरल (व समकक्ष) रैंक में

एम एल चावला (एमआर-02068ए), 30.05.05 वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले वरीयता 01.04.05 से दी जाती है।

एम पी जयप्रकाश (एमआर-02250ए), 30.05.05 वेतन व पेंशन
पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 01.05.05 से दी जाती है।

एच के मैनी (एमआर-02282एच), 01.07.05 वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले वरीयता 01.06.05 से दी जाती है।

एल पी सधोत्रा (एमआर-03158एन), 30.09.05।

ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) से एयर कोमोडोर (व समकक्ष) रैंक में
के फर्नान्डीज (एमआर-02839के) (वा से 12660), 01.10.04 वेतन
व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 29.06.04 से दी जाती है।

डी के खन्ना (एमआर-4934पी) (वा से 13760) 02.05.05 वेतन
व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले वरीयता 30.01.05 से दी जाती है।

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) रैंक में

एम आर वाघरे (एमआर-02895एम), 08.09.05 वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले वरीयता 01.06.05 से दी जाती है।

ए के जायसवाल (एमआर-2783एम), 01.09.05 वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले वरीयता 03.06.05 से दी जाती है।

वाई सतपथी (एमआर-03171एक्स), 05.09.05 वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले वरीयता 02.07.05 से दी जाती है।

ओ पी मैथ्यू (एमआर-02838एफ), 07.11.05 वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले वरीयता 02.10.05 से दी जाती है।

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) रैंक में

पी एल गुप्ता (एमआर-03646डब्ल्यू), 19.10.04 वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 31.03.04 से दी जाती है।

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) रैंक में

एस एस नजोत्रा (एमआर-04526के), 24.10.04 वेतन व पेंशन पर
बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28.06.04 से दी जाती है।

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर
उप म.नि.से.से.चि.स (का.)

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 170, दिनांक 6 मार्च 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते
हैं :-

मस्का मुम्बई के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II, श्री एस सी करन
22 मार्च, 2005 (पूर्वाह) से मस्का, मुम्बई में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
ग्रेड-I के रूप में।

मु.नि.नि. कार्यालय बंगलूर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II,
श्री महेन्द्र सिंह, 31 मार्च, 2005 (पूर्वाह) से अलिस्टा, बंगलूर में वरिष्ठ
अधिकारी ग्रेड-I के रूप में।

मु.नि.नि. कार्यालय नासिक प्रभाग, ओझर के वरिष्ठ वैज्ञानिक
अधिकारी ग्रेड-II, श्री एस के आर आर सांखला 18 अप्रैल, 2005
(पूर्वाह) से वायु शस्त्र निरीक्षण स्कंध (ए ए आई डब्ल्यू) टुकड़ी कानपुर
में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I के रूप में।

मु.नि.नि. कार्यालय बंगलूर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II, श्री आर जयगणेश 20 जून, 2005 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. के कार्यालय (एए) किरकी में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I के रूप में।

मु.नि.नि. कार्यालय नासिक प्रभाग, ओझर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II, श्री पी मतियाझगन, 13 जून, 2005 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय कोरापुट में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I के रूप में।

मु.नि.नि. कार्यालय नासिक प्रभाग, ओझर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II, श्री सी रंगास्वामाईया, 17 मार्च 2005 (पूर्वाह) से मु.नि.नि. कार्यालय बंगलूर में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I के रूप में।

वी. सेतुमाधवन
अवर सचिव

कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

सं. 171, दिनांक 8 मार्च 2006--रक्षा मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण संगठन की डा. (श्रीमती) पंकी यादव, महिला चिकित्सा अधिकारी (परिवार कल्याण) ग्रुप ए राजपत्रित को दिनांक 24 सितम्बर 2004 (अपराह) से सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति दे दी गई और उसी दिनांक से उनका नाम नफरी से हटा दिया गया।

सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज पुणे के अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर विभाग में कार्यरत डाक्टर (श्रीमती) एस एल सूद, सहायक प्रोफेसर (वर्ग क राजपत्रित) निवर्तन आयु होने पर दिनांक 28 फरवरी 2005 (अपराह) से सेवा निवृत्त हुई तथा 01.03.05 (पूर्वाह) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित की गई।

अमर नाथ सिन्हा
उप निदेशक/डीजी-3डी

सं. 172, दिनांक 7 मार्च 2006--निम्नलिखित अधिकारी को जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा अधोलिखित दण्ड दिया गया तथा प्रकाशित दिनांक 31 मई 2005 को किया गया।

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

एमआर-06486एम ले कर्नल प्रमोद कुमार

(क) पेंशन के लिये 8 वर्ष की पूर्ण सेवा का अधिहरण।

(ख) कड़ी भर्त्सना किया गया।

औथोरिटी :-सी/06280/ईसी/239/एजी/डीवी-2 दिनांक--27 जून 2005

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर
उप डीजीएफएमएस (पर्स.)

शुद्धिपत्र

सं. 173, दिनांक 2 मार्च 2006--रक्षा मंत्रालय की दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना में वर्ष 1998 के लिए इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त किया गया है के क्रम संख्या 5 के कालम में श्री एफ के पांडे के नाम के सामने अवर सचिव के रूप में आरम्भिक नियुक्ति की तारीख को इस प्रकार पढ़ा जाए :-

23.10.98 के स्थान पर 28.9.98 पढ़ें

जी. विजयराघवन
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st April 2006

ARMY BRANCH

No.161, dated 2nd March 2006.—The President is pleased to appoint Ms. M.V. Bhanumathi, IRS(IT:87) on transfer from the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 7.2.2006 (FN) upto 6.2.2011 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri S.C. Barmma, IPoS(87), on transfer from the Ministry of Communication & IT, Department of Posts as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 7.2.2006(FN) upto 6.2.2011 or until further orders, whichever is earlier.

G. VIJAYARAGHAVAN
Under Secy.

ARMY HEADQUARTERS

QMG's BRANCH

No. 162, dated 3rd March 2006.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of AFHQ Civil Service as Deputy Director (Group A, Gazetted) (Pay Scale of Rs. 10,000-15,200) under the Rule 7 (8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from the date mentioned against each for a period upto 08 Feb 2006 or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier:—

Name	Date of Appointment
(a) Shri Jagdish Singh	30 Nov 2005
(b) Shri G N Chauhan	30 Nov 2005
(c) Shri Raj Kumar	05 Dec 2005
(d) Shri R S Mehra	01 Dec 2005
(e) Shri V D Meena	30 Nov 2005

These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Admn. Officer (A)

No. 163, dated 7th March 2006.—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission (Special List)

The undermentioned JCOs/NCOs are granted Permanent Commission Special List (PC/SL) in the categories as shown against their names in the rank of Lt. under the provisions of

AI 85/74 with effect from 02 Jul 2005 (FN) as per inter-seniority given below. JCOs mentioned in this Gazette having eight years combined service as JCO and the ranks are also granted two years ante-date seniority for pay only under the provisions of sub para 7 (c) of AI 85/74:—

Army No., Rank, Name, SL No., Previous Army/Servi & Category

JC-199959Y Sub Maj Jaiprakash (SL-4825H), Engrs, AEE B/R/ASW

JC-219555A Sub Nelson P (SL-4826L), Engrs, AEE B/R/ASW

JC-199953X Sub Gireesh Kumar (SL-4827N), Engrs, AEE E/M/IEM

JC-325662M Sub Satendra (SL-4828W), Engrs, AEE B/R/ASW

JC-199973L Sub Dharamvir Singh (SL-4829Y), Engrs, AEE B/R/ASW

JC-327156A Sub MK Narayanan (SL-4830N), Engrs, AEE B/R/ASW

JC-325679A Sub Pawan Kumar (SL-4831W), Engrs, AEE E/M/IEM

JC-803078X N/Sub Lalit Pandey (SL-4832Y), AEC, RO

JC-834348H N/Sub Rajender Singh (SL-4833F), APS, RO

JC-307018X N/Sub A Chirsty Besky (SL-4834K), Engrs, RO

JC-439079X N/Sub Sanjoy Bhattacharyya (SL-4835M), Inf, RO

JC-756407P N/Sub Krishnan N (SL-4836P), EME, EMAE

JC-757421N N/Sub Radha Krishnan Nair PR (SL-4837X), EME, EMAE

JC-758020W N/Sub Sudhir Prakash VK (SL-4838A), EME, EMAE

JC-758463M N/Sub Mrinal Kanti Ghara (SL-4839H), EME, EMAE

JC-758340A N/Sub Ramniwas Beniwal (SL-4840X), EME, EMAE

JC-330387F N/Sub Choudhari Uttam Prabhakar (SL-4841A), Engrs, AEE B/R/ASW

JC-330455K N/Sub Bahuleyan Pillai R (SL-4842H), Engrs, AEE E/M/IEM

No.14269145W Hav Tejvir (SL-4843L), Signals CIPHER

No.6923494H Hav Sanjeevan Changat (SL-4844N), AOC RO

No.14570372F Hav B Srinivasa Rao (SL-4845W), EME RO

No.9511957P Hav Rajveer Singh (SL-4846Y), AEC RO

No.1359258W Hav Iyyappan T (SL-4847F), Signals RO

No.2986112W Hav Preman TV (SL-4848K), Inf RO
 No.6389152X Hav Aman Kalet (SL-4849M), ASC RO
 No.6390660A Hav Ajay Kumar (SL-4850F), ASC RO
 No.6391269P Hav Yuvraj Singh Thakur (SL-4851K),
 ASC RO
 No.13751187M Hav Deshraj Koundal (SL-4852M),
 ASC RO
 No.14600157N Hav Samson D Victoria (SL-4853P),
 ASC RO
 No.6929537H Hav Sanjay Kumar Mahapatra (SL-4854X),
 ASC RO
 No.6386857Y Hav Rajender Kumar (SL-4855A), ASC RO
 No.15306357X Hav Vijay Kumar S (SL-4856H), Engrs AO
 No.2882904X Hav Harjit Singh (SL-4857L), Inf RO
 No.6388000K Hav Girish Joshi (SL-4858N), ASC RO
 No.6482410Y Hav A Kumar (SL-4859W), ASC RO
 No.15359819A Hav M Srinivasa Reddi (SL-4860L),
 Mech RO
 No.6389090H Hav Ajay Kumar (SL-4861N), ASC RO
 No.5752228M Hav Moolchand Gujar (SL-4862W), Inf RO
 No.15114646X Hav Habeeb S (SL-4863Y), AD Arty RO
 No.6929627K Hav P Reddeppa (SL-4864F), AOC RO
 No.14404250H Hav Siva Kumar P (SL-4865K), ASC RO
 No.6392120A Hav Manoj Kumar Pal (SL-4866M), ASC
 RO
 No.4072893N Hav Devendra Singh Negi (SL-4867P), ASC
 RO
 No.6388898F Hav GN Wasudeo (SL-4868X), ASC RO
 No.6389042H Hav Mahesh Inder (SL-4869A), ASC RO
 No.13691158L Hav Rabi Narayan Padhi (SL-4870P), Inf
 RO
 No.9095917N Hav Gurcharan Singh Chib (SL-4871X), Inf
 RO
 No.6389311K Hav Jitendra Kumar Dewangan (SL-4872A),
 ASC RO
 No.6389280P Hav Bibekanda Pattnayak (SL-4873H), ASC
 RO
 No.1583217Y Hav Mashur Biswakarma (SL-4874L), Engrs
 RO
 No.1490231Y Hav Vinod Kumar Sangawan (SL-4875N),
 ASC RO
 No.6388977W Hav Pramod Singh Atri (SL-4876W), ASC
 RO
 No.14608456F Hav AM Musthafa (SL-4877Y), EME
 EMAE
 JC-15381963P Hav Ajay Dhyani (SL-4878F), Signals RO
 No.14380221M Hav Sreenivasan KN (SL-4879K), AD Arty
 RO

No.1578506K Hav Bikram Singh (SL-4880Y), Engrs AEE
 E/M/IEM

No.1575272A Hav Salwinder Singh (SL-4881F), Engrs AEE
 E/M/IEM

No.1490525M Hav Sushil Kumar (SL-4882K), EME RO

No.15302142F Hav Sudhakaran PR (SL-4883M), Engrs
 AEE B/R/ASW

No.15367466A L/Hav S Srinivasa Rao (SL-4884P), Signals
 RO

No.15372241F L/Hav Vijaya Kumaran KP (SL-4885X),
 Signals RO

No.15368639Y L/Hav M Yatheeswar (SL-4886A), Signals
 RO

No.1579600A NK Khem Chand (SL-4887H), Engrs IOAB

No.15462489M LD M Jibon Singha (SL-4888L), AC RO

No.15115865L L/Hav Kamirkar Maula Dastagir
 (SL-4889N), Arty RO

S. K. SHARMA, Lt Col
 AMS-8B

KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHA STRA SENA
 CHIKITSA SEWA/DG-3D

No. 164, dated 8th March 2006.—The President is pleased
 to appoint the following individual to the post of Lady Medical
 Officer (Family Welfare) Group 'A' Gazetted in a temporary
 capacity in the Family Welfare Organization under Ministry of
 Defence with effect from the date shown against her name until
 further orders. She will be on probation for a period of two years.

(a) Dr. (Mrs.) Ritu Chaudhary 14 Dec 2005 (F/N)

AN SINHA,
 Dy. Dir/DG-3D

No. 165, dated 3rd March 2006.—The President is pleased
 to make the following appointments with effect from the dates
 shown against each (Navy Instruction 15/69 refer).

INDIAN NAVY

PERMANENT CADRE

To Be

MASTER CHIEF PETTY OFFICER CLASS I

Name, No., Rank & Date

Laxmi Narayan Khash (No.097647A), MCPO I UW I,
 01 April 2004

Devinder Singh (No.103654B), MCPO I RC I, 01 April 2004

Karan Singh Rana (No.103171Y), MCPO I PT I, 01 April
 2004

Onkar Singh (No.104337F), MCPO I UW I, 01 April 2004

Jaswant Singh Viest (No.104918A), MCPO I PT I, 01 April
 2004

T Manie Joseph (No.104954H), MCPO I RP I, 01 April 2004

- Ram Avtar Ram (No.105172B), MCPO I QA I, 01 April 2004
- Piere Lal (No.105205B), MCPO I RC I, 01 April 2004
- Bhosele D Narayan (No.107200N), MCPO I QA I, 01 April 2004
- Satbir Singh (No.108256N), MCPO I UW I, 01 June 2004
- Bhag Chand (No.109291R), MCPO I RC I, 01 November 2004
- Parshital Kumar Sondal (No.109336T), MCPO I RC I, 01 July 2004
- Jaipal Singh (No.109671B), MCPO I UW I, 01 July 2004
- Surendera Kumar Sahu (No.110380R), MCPO I GI (W), 01 November 2004
- Bimal Kumar Satapathy (No.140773R), MCPO I RP I, 01 April 2004
- Satish Kumar Sharma (No.141065B), MCPO I QA I, 01 April 2004
- Gurpal Singh Bansal (No.141144H), MCPO I RC I, 01 April 2004
- Satyapal S Chauhan (No.141916N), MCPO I RC I, 01 April 2004
- Ram Kishore (No.141982N), MCPO I UC I, 01 May 2004
- Manik Lal Kala (No.141988A), MCPO I QA I, 01 April 2004
- Diwakar Prasad Yadav (No.142217Y), MCPO I QA I, 01 November 2004
- Harish Chandra (No.142442H), MCPO I UC I, 01 April 2004
- Sanjay Kumar Sah (No.142569Y), MCPO I QA I, 01 April 2004
- Niranjana Pramanik (No.142668Y), MCPO I UC I, 01 July 2004
- Mohan Singh (No.142973R), MCPO I UC I, 01 June 2004
- Nihal Singh (No.143064Y), MCPO I QA I, 01 November 2004
- Deep Chand (No.143354F), MCPO I QA I, 01 June 2004
- Kaushol Kishore Mishra (No.143561A), MCPO I RP I, 01 May 2004
- Ram Prakash Singh (No.143564H), MCPO I RC I, 01 December 2004
- Jagdish Singh (No.143926F), MCPO I UW I, 01 August 2004
- Amrik Singh (No.144005K), MCPO I PT I, 01 May 2004
- Dharam Bir (No.144355F), MCPO I RC I, 01 April 2004
- Ashwani Kumar (No.144469R), MCPO I RC I, 01 July 2004
- Satpaul Turphania (No.146073K), MCPO I GI (S), 01 November 2004
- Ruppa Mufali (No.168128A), MCPO I PT 3, 01 July 2004
- Byju E Gopinathan (No.173328B), MCPO I PT 2, 01 July 2004
- SS Negi (No.200172N), MCPO I QA I, 01 April 2004
- Gulshan Kumar Sharma (No.200184R), MCPO I UC I, 01 April 2004
- Subash Chandra Lal (No.200563A), MCPO I QA I, 01 April 2004
- Girish Chandra (No.201410A), MCPO I PT I, 01 April 2004
- Desh Raj (No.201531A), MCPO I CD I, 01 April 2004
- Jagdish Prasad (No.203572R), MCPO I RP I, 01 April 2004
- Harindra Tiwari (No.203594R), MCPO I RC I, 01 April 2004
- Balabhadra Panda (No.203620Z), MCPO I QA I, 01 April 2004
- Rakesh Singh (No.203699B), MCPO I RP I, 01 Oct 2004
- Men Mohan Singh (No.203919B), MCPO I UC I, 01 May 2004
- Nathu Ram (No.204353R), MCPO I QA I, 01 April 2004
- Raj Pal Singh (No.141255K), MC AT ARMS I, 01 August 2004
- Riddha Lal (No.107786W), MCPOR TEC I, 01 June 2004
- Surender Singh Phogat (No.202226F), MCPOR TEC I, 01 May 2004
- Brajendra K Upadhyay (No.202255Y), MCPOR TEC I, 01 July 2004
- Shashi Bushan Prasad (No.109381W), MCPOR TEL I, 01 Sep 2004
- Ravan KP (No.144163W), MCPOR TEL I, 01 Aug 2004
- VN Sasidharan Pillai (No.202611F), MCPOR TEL I, 07 Dec 2004
- Nadiamohan Pattanaik (No.204205B), MCPOR TEL I, 01 May 2004
- Vinod Kumar Upadhyay (No.143598K), MCPOR SPL I, 24 Aug 2004
- Ghara Ram (No.141439B), MCPO MA I, 01 April 2004
- Umesh Kumar (No.141452H), MCPO MA I, 01 Jul 2004
- Narender Kumar Singh (No.142049R), MCPO MA I, 01 Apr 2004
- Kameshwar Giri (No.142727F), MCPO MA I, 01 Dec 2004
- Suresh Kumar Rai (No.142866Y), MCPO MA I, 01 Oct 2004
- Devraj Jamwal (No.107336Y), MSCPO I, 01 May 2004
- Kasher Singh Chauhan (No.107578Y), MSCPO I, 01 May 2004
- Babruwahan Sawant (No.107983T), MSCPO I, 01 May 2004
- Raj Kumar (JC-141548A), MCPO I, 01 May 2004
- Anil Kumar Yadav (No.110497F), MCPO WTR I, 01 Apr 2004
- Selvaraj T (No.146004B), MCPO WTR I, 01 Apr 2004

- Virendra Singh (No.146032T), MCPO WTR I, 01Apr 2004
- Babu KK (No.146981Z), MCPO WTR I, 01 Oct 2004
- S Balaji Bholkar (No.143694B), MCPO STD I, 01Apr 2004
- Balam Ram (No. 105113W), MCPO CK (O) I, 01 May 2004
- Bimolendu Roy (No.106972W), MCPO CK (O) I, 01 Aug 2004
- Brijesh Singh (No.140180T), MCPO CK (S) I, 01 Apr 2004
- Tara Chand (No.140305A), MCPO CK (S) I, 01 Apr 2004
- Balaram Nandi (No.140308H), MCPO CK (S) I, 01 Apr 2004
- T Vereghese Xavier (No.140646A), MCPO CK (S) I, 01 Apr 2004
- Bharam Pal (No.103795Z), MCPO TOP I, 01 Apr 2004
- Govind Singh (No.188071K), MCPO MUS I, 01 Apr 2004
- Madan Lal Rana (No.107946H), MCA (AH) I, 01 Apr 2004
- Arvind Kumar (No.108261Z), MCA (AH) I, 01 Sep 2004
- Ramesh Chand Mehta (No.142591Y), MCA (MET) I 01 Jul 2004
- Dhanna Ram Nayak (No.107843Z), MC ELA I, 01 Apr 2004
- JS Bohra (No.143183T), MC ELA I, 01 Apr 2004
- Hanumana Ram (No.108122H), MC ELAR I, 01 Apr 2004
- Raj Gopalan Nair K (No.144994H), MCPO AF I, 01 Apr 2004
- B Chandra Behra (No.110600R), MCPO AOF I, 01 May 2004
- Virendra Kumar Singh (No.148337F), MCPO AOF I, 01 Oct 2004
- P Kumar Yadav (No.187352A), MC AA I, 01 Apr 2004
- CK Unnikrishnan (No.187603Y), MC AA I, 01 Apr 2004
- IVS Kushwah (No.192057W), MC AA I, 01 Apr 2004
- Raj Kumar (No.192428N), MC AA I, 01 Apr 2004
- Lalan Prasad (No.192496T), MC AA I, 01 Apr 2004
- C Singh Rathore (No.192541W), MC AA I, 01 Apr 2004
- Shree Kumar K (No.111985N), MCAM I, 01 Apr 2004
- OmPrakash Yadav (No. 149146H), MCAM I, 01 Apr 2004
- N Bhushana (No.187539A), MCAA(W) I, 01 Sep 2004
- Dhananjay Chokravorty (No.187173W), MCEAA I, 01 Apr 2004
- Ajay Kumar Yadav (No.192019H), MCEAA I, 01 Apr 2004
- Ram Ekbal Rai (No.192235Z), MCEAA I, 01 Apr 2004
- Sri Kant (No.192363R), MCEAA I, 01 Apr 2004
- Sarika Venkateswar (No.187648Z), MCEAAR I, 01 Apr 2004
- S Kalyana Raman (No.192316H), MCEAAR I, 01 Apr 2004
- Sher Singh Gurjar (No.192379A), MCEAAR I, 01 Apr 2004
- Samson Faber (No.109849H), MCELR I, 01 Jun 2004
- Ram Kumar Sah (No.110686K), MCELR I, 8 July 2004
- Ramesh Chandra (No.111194R), MCELR I, 28 July 2004
- Rishi Kumar Das (No.141054B), MCELR I, 01 May 2004
- Hargopal Singh (No.143388H), MCME I, 01 Dec 2004
- Sohan Singh (No.144557R), MCME I, 01 Nov 2004
- Gopal Singh Rajput (No.187615Z), MCERA I, 01 Apr 2004
- Prasanna Kumara PJ (No.187621N), MCERA I, 01 Apr 2004
- Rama Murthy HK (No.187630H), MCERA I, 01 Apr 2004
- Kapileswar Sahoo (No.187644R), MCERA I, 01 Apr 2004
- Akber Ali (No.187658Y), MCERA I, 01 Nov 2004
- Sabu Thomas (No.187659Z), MCERA I, 01 Apr 2004
- Kuppusamy Velusamy (No.187660A), MCERA I, 01 Sep 2004
- Juby Thomas J (No.187662F), MCERA I, 01 Apr 2004
- Venugopal G (No.187667T), MCERA I, 01 Apr 2004
- PA Joy (No.187668W), MCERA I, 01 Apr 2004
- Soumen Sarkar (No.187670Z), MCERA I, 01 Nov 2004
- Thomas Kutty KK (No.187672B), MCERA I, 01 Apr 2004
- Kandikatla S Raju (No.187673F), MCERA I, 01 Oct 2004
- TV Aravindakshan (No.187675K), MCERA I, 01 Apr 2004
- Gidla Abraham Paul (No.187677R), MCERA I, 01 Aug 2004
- Mane Dnyaneshwar S (No.187678T), MCERA I, 01 Apr 2004
- Vijay S Tripathy (No.191756K), MCERA I, 01 Apr 2004
- Mahattam Ram (No.191906A), MCERA I, 01 Apr 2004
- Prakash Chandra (No.197036K), MCEAP I, 02 Apr 2004
- Parmeshwar Singh (No. 197157K), MCEAP I, 01 July 2004
- K Singh (No.110124H), MCMECH (P) I, 01 Apr 2004
- Ilaykey Dar Yadav (No.111283T), MCMECH (P) I, 01 Sep 2004
- Umma Reddy Davakar (JC-146399A), MCMECH (P) I, 01 Apr 2004
- Hushan Kumar (JC-147794Y), MCMECH (P) I, 01 Oct 2004
- Chandra Sekhar Singh (JC-148839Y), MCMECH (P) I, 01 Nov 2004

- Ram Sureman Ahir (JC-192008H), MCMECH (R) I, 01 Apr 2004
- Gynender Pal Singh (JC-110583A), MCMECH (R) I, 01 Apr 2004
- Bijender Singh (JC-111680W), MCMECH (R) I, 01 Apr 2004
- Jagdev Singh (JC-146290B), MCMECH (R) I, 01 Apr 2004
- Babu Ram Bishnoi (JC-147411A), MCMECH (R) I, 01 Apr 2004
- Ram Narayan Prasad (JC-147610B), MCMECH (R) I, 01 Apr 2004
- Bathula S Vinay Kumar (JC-187403T), MCSWA I, 01 Apr 2004
- Sujan Singh (JC-187410H), MCSWA I, 01 Apr 2004
- MK Saju (JC-187639B), MCSWA I, 01 Apr 2004
- Surinder Kanda (JC-191713N), MCSWA I, 01 Apr 2004
- MASTER CHIEF PETTY OFFICER CLASS II
- K Sampat Kumar Gopu (JC-111647W), MCPO II RC I, 01 Apr 2004
- Ravinder Kumar (JC-112296W), MCPO II UW I, 01 May 2003
- Rati Ram (JC-112371R), MCPO II QA I, 01 Nov 2003
- Ram Narayan Chatterjee (JC-112586B), MCPO II UW I, 01 Apr 2004
- Rajnath Singh Yadav (JC-112939F), MCPO II PR I, 01 Apr 2004
- Ashok Kumar Trivedi (JC-113062K), MCPO II UW I, 01 Apr 2004
- Satya Narain Singh (JC-113121W), MCPO II QA I, 01 Jun 2004
- Sunil Kumar Gupta (JC-113149H), MCPO II QA I, 01 Nov 2004
- Naresh Kumar Sharma (JC-113305N), MCPO II QA I, 01 May 2004
- Santosh Kumar (JC-113322A), MCPO II ASWI (S), 01 July 2004
- Laxman Jati (JC-113507Y), MCPO II RC I, 01 Jun 2004
- Rajender Singh (JC-113547N), MCPO II RP I, 01 Aug 2004
- Ram Singh Shekhawat (JC-113583W), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Ramesh Kumar Yadav (JC-113616W), MCPO II RP I, 01 Apr 2004
- Onkeshwar Mishra (JC-113619A), MCPO II QA I, 01 July 2004
- Ved Prakash Pandey (JC-113727Y), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Pawan Kumar (JC-113743H), MCPO II QA I, 01 May 2004
- Ramesh Rai (JC-113942K), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Vijay Kesavan (JC-114021R), MCPO II ASWI (W), 01 Aug 2004
- Mohan Mallana (JC-114154T), MCPO II GI (W), 01 July 2004
- Dharm Pal (JC-114283K), MCPO II SR I, 01 Apr 2004
- Rampal Kaushik (JC-147992Y), MCPO II RC I, 01 Apr 2004
- Sharafat Ali Shaik (JC-148074H), MCPO II RC I, 01 Nov 2004
- Ravindra Kumar Singh (JC-148696Y), MCPO II ASWI (W), 01 Aug 2004
- Dinesh Singh (JC-149527K), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Kailashnath Singh (JC-149937T), MCPO II UC I, 01 Apr 2004
- Suresh Prasad (JC-149949W), MCPO II ASWI (S), 01 May 2004
- Nitai Raman Das (JC-160183B), MCPO II UC I, 01 Apr 2004
- Girish Chandra Joshi (JC-160208K), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Kali Ram (JC-160236Z), MCPO II PT I, 01 Apr 2004
- Narender Singh (JC-160640T), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Akhileshwar Yadav (JC-160752Y), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Kulvinder Singh (JC-160777B), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Tiwari Vijay Shankar (JC-160791K), MCPO II QA I, 01 Jun 2004
- Krishnan Pratapan (JC-160962Z), MCPO II RP I, 01 Apr 2004
- Nikunja Kishore Sahoo (JC-160984Z), MCPO II GI (W), 01 Apr 2004
- P Chandra Mahapatra (JC-161126Y), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Lal Mani (JC-161206B), MCPO II QA I, 01 May 2004
- Kuldeep Singh (JC-161254N), MCPO II RC I, 01 Jul 2004
- Subash Chandra Behera (JC-161396K), MCPO II QA I, 01 Apr 2004
- Sitaram Singh (JC-161492B), MCPO II RC I, 01 Jun 2004
- Dharam Bir (JC-161548F), MCPO II PT I, 01 Apr 2004

- Jitendra Singh (JC-161629R), MCPO II UC I, 01 Apr 2004
- Mahendra R Bhardwaj (JC-161735F), MCPO II UW I, 01 Apr 2004
- Hari Ram (JC-162012K), MCPO II UW I, 01 Apr 2004
- Trilok Singh Indolia (JC-162041A), MCPO II ASWI (S), 01 Apr 2004
- Madan Mohan Singh (JC-162246T), MCPO II GI (W), 01 Apr 2004
- Ram Adhar (JC-162307F), MCPO II RC I, 01 Jul 2004
- Ram Sajiwan (JC-162317B), MCPO II RC I, 01 Oct 2004
- Arjun Singh Yadav (JC-162458Z), MCPO II UW I, 01 Apr 2004
- Ram Karan (JC-162814H), MCPO II PR I, 01 Apr 2004
- Anil Kumar (JC-162936K), MCPO II UW I, 01 Apr 2004
- Leeladhar Chouhan (JC-162996Y), MCPO II PRI, 01 Jul 2004
- Trilok Singh Negi (JC-163088F), MCPO II PRI, 01 Apr 2004
- Hari Bux Singh (JC-163629K), MCPO II PRI, 01 Nov 2004
- Deep Kumar Kandpal (JC-112551Z), MC AT ARMS II, 01 Aug 2004
- Balwan Singh (JC-149206F), MC AT ARMS II, 01 Jun 2004
- Prem Kumar Gupta (JC-149291Z), MC AT ARMS II, 01 Jun 2004
- Prahlad Singh (JC-149619W), MC AT ARMS II, 01 Apr 2004
- Sanjay Kumar Singh (JC-114667H), MCPORAC II, 01 May 2004
- Chandra Pal Giri (JC-147103A), MCPORAC II, 16 Aug 2004
- Nand Kumar Singh (JC-148194F), MCPORAC II, 01 Apr 2004
- Rajender Kumar Singh (JC-149513B), MCPORAC II, 01 Apr 2004
- Satheesan N (JC-160825N), MCPORAC II, 01 Apr 2004
- Lalgi Pal (JC-162138Y), MCPORAC II, 01 Apr 2004
- Santosh Kumar Upadhyay (JC-163075A), MCPORAC II, 01 Apr 2004
- Narender Singh (JC-111406Y), MCPORTEL II, 01 Apr 2004
- Rajendra P Sharma (JC-113588F), MCPORTEL II, 01 Apr 2004
- Suresh Kumar (JC-113924W), MCPORTEL II, 01 May 2004
- Narayan S Dhami (JC-114787F), MCPORTEL II, 01 Apr 2004
- Ashok Kumar Pati (JC-148215B), MCPORTEL II, 01 Apr 2004
- Avadh Behari (JC-160478Z), MCPORTEL II, 01 Apr 2004
- Shankar Nazir (JC-161070W), MCPORTEL II, 01 Jul 2004
- Girja Raman Pandey (JC-161341K), MCPORTEL II, 01 Apr 2004
- Har Bhagat (JC-161580B), MCPORTEL II, 01 Jun 2004
- Baidehi Sharan Shukla (JC-162791F), MCPORTEL II, 01 Jul 2004
- Daya Ram Saini (JC-162939T), MCPORTEL II, 01 Sep 2004
- Jaswant Singh (JC-162205Z), MCPORSPL II, 01 Apr 2004
- Chandra Shekhar Prasad (JC-111810R), MCPO MA II LI, 01 Apr 2004
- Rakesh Kumar (JC-111918K), MCPO MA II ORT I, 01 Jul 2004
- Gopal Dubey (JC-112310A), MCPO MA II ORT I, 01 Oct 2004
- Gunbir Singh (JC-148302A), MCPO MA II PHA I, 01 Apr 2004
- Nand Lal (JC-148592K), MCPO MA II MS I, 01 Apr 2004
- Nabab Singh (JC-148746K), MSCPO MA II L I, 01 Dec 2004
- Dinesh Singh (JC-109978A), MSCPO II, 01 May 2004
- TP Abraham (JC-110010Z), MSCPO II, 01 May 2004
- Kripa Shankar S Yadav (JC-110154A), MSCPO II, 01 May 2004
- Satyvart (JC-111541B), MSCPO II, 01 May 2004
- Ranveer S Shekhawat (JC-112361T), MSCPO II, 01 Nov 2004
- Shakeek Ahmad Khan (JC-144945Y), MSCPO II, 01 May 2004
- Rajeshwar Chand (JC-149220N), MSCPO II, 01 Aug 2004
- Om Pal Singh (JC-149772T), MSPO II, 01 May 2004
- Dinesh Kumar Singh (JC-112476B), MCPOWTR II, 01 Oct 2004
- Ravindran K (JC-149032K), MCPOWTR II, 01 Apr 2004
- Ram Chander (JC-149064H), MCPOWTR II, 01 Apr 2004
- Natthu Ram (JC-149218H), MCPOWTR II, 01 Apr 2004
- Suresh Singh (JC-149702H), MCPOWTR II, 01 Apr 2004
- Sudhakara (JC-160847N), MCPOWTR II, 01 Apr 2004
- Radhe Shyam (JC-161219H), MCPOWTR II, 01 Apr 2004

Yogender Singh (JC-161942A), MCPOWTR II, 01 Jul 2004	Chhedil Lal Yadav (JC-161725H), MCPO AF II, 01 Apr 2004
P Mohana Maharana (JC-108424W), MCPOSTD II, 01 Aug 2004	R Krit Singh Yadav (JC-162467W), MCPO AF II, 01 Apr 2004
Saji Methew (JC-109247R), MCPOSTD II, 01 Nov 2004	Rajesh Kant Choudhary (JC-163395B), MCPO AF II, 01 Apr 2004
Mir Singh (JC-143847A), MCPOSTD II, 01 Oct 2004	K Suresh (JC-164842T), MCPO AF II, 01 Sep 2004
Sispal Singh (JC-108034H), MCPOCK (O) II, 01 May 2004	Pravin C Choudhary (JC-166218W), MCPO AF II, 01 Apr 2004
Tribhuvan Singh (JC-108080N), MCPOCK (O) II, 01 Aug 2004	Bhanwar Singh Fageria (JC-162415A), MCPO AOF II, 01 Oct 2004
Vikram Singh Kushwaha (JC-108626B), MCPOCK (O) II, 01 Sep 2004	Sudhir Pathania (JC-192896A), MC AA II, 01 Apr 2004
Manindra Kumar Singh (JC-106539K), MCPOCK (S) II, 01 Oct 2004	Shri Bhagwan Pathak (JC-193092Y), MC AA II, 01 Apr 2004
Fateh Bahadur Singh (JC-107243K), MCPOCK (S) II, 01 Oct 2004	Nagalingam Siva (JC-193123T), MC AA II, 01 Apr 2004
Agnu Ram (JC-107611Y), MCPOCK (S) II, 28 Jul 2004	Ashfaq Ahmad (JC-193148Z), MC AA II, 01 Apr 2004
Amar Chandra (JC-107563N), MCPOTOP II, 01 Nov 2004	Patitta Pattanaik (JC-193334Y), MC AA II, 01 Apr 2004
O Joy Kutty (JC-107854Z), MCPOTOP II, 01 Oct 2004	Yogesh Singh Shekhawat (JC-193340K), MCAA II, 01 Apr 2004
Sham Lal (JC-108017W), MCPOTOP II, 01 Oct 2004	Sony Shakeson (JC-193341N), MC AA II, 01 Oct 2004
Mongal Hazra (JC-143769Z), MCPOTOP II, 01 Oct 2004	Surinder Kumar (JC-193357Z), MC AA II, 01 Apr 2004
Rajesh Kumar Taman (JC-188144H), MCPOMUS II, 01 Apr 2004	Kesheo Singh Kushwaha (JC-192787B), MC AA (W) II, 01 Apr 2004
Chandra Pal Singh (JC-188153Y), MCPOMUS II, 01 Apr 2004	Dharmendra Singh (JC-1937044N), MC AA (W) II, 01 Sep 2004
Dcepak Anand Amonk (JC-188218W), MCPOMUS II, 01 Apr 2004	L Rajaram Bhau (JC-114727W), MC AM (W) II, 01 Apr 2004
Mritunjay Choudhary (JC-112578K), MCA (AH) II, 01 Apr 2004	Parsuram Rout (JC-162727K), MC AM (W) II, 01 Apr 2004
Balwinder Singh (JC-114143T), MCA (AH) II, 01 Sep 2004	Ashok Singh Negi (JC-163642R), MC AM (W) II, 01 Apr 2004
Yogender Kumar (JC-149507R), MCA (AH) II, 01 Apr 2004	Anil Kumar S (JC-197271W), MC EAA II, 01 Apr 2004
Dayal Singh (JC-149988H), MCA (AH) II, 01 Apr 2004	Rajendra Mishra (JC-197332H), MC EAA II, 01 Apr 2004
Primal Das (JC-160112T), MCA (AH) II, 01 Apr 2004	PV Benny (JC-197471Z), MC EAA II, 01 Apr 2004
Pradeep Kumar (JC-162954A), MCA (AH) II, 01 Oct 2004	Mahavir Singh Rathore (JC-197482Z), MCEAA II, 01 Apr 2004
Jitendra Singh (JC-114647N), MCA (AH) II, 01 Jan 2005	BL Sharma (JC-197261Y), MC EAAR II, 01 Nov 2004
Velavarthipati A R (JC-146402H), MCA (AH) II, 01 Apr 2004	Laxman Singh Rawat (JC-113927A), MC ELP II, 01 Apr 2004
Jagdish Singh Negi (JC-164858B), MCELA II, 01 Apr 2004	Dalel Singh (JC-114445B), MC ELP II, 01 Jul 2004
JC Pandey (JC-165400K), MCELA II, 01 Apr 2004	AS Rathore (JC-114533B), MC ELP II, 01 Jan 2004
S Raghunathan (JC-165626Z), MCELAR II, 01 Apr 2004	Rajinder Kumar (JC-114616T), MC ELP II, 01 Apr 2004
Nasib Singh (JC-1667007R), MCELAR II, 01 Apr 2004	Chunchun Yadav (JC-149328H), MC ELP II, 01 Apr 2004
Vishnu Prasad (JC-166500K), MCELAR II, 01 Apr 2004	

Bijay Kumar Thakur (JC-160339H), MC ELP II, 01 Apr 2004

Rajendra Singh (JC-161534Z), MC ELP II, 01 Apr 2004

Om Prakash (JC-62243K), MC ELR II, 01 Oct 2004

Anoop Kumar (113496Y), MC ELR II, 01 Apr 2004

Ram Phool (113615T), MC ELR II, 01 Apr 2004

Din Bandhu Pandey (113997K), MC ELR II, 01 Jun 2004

Raval Shailesh Kumar (114298W), MC ELR II, 08 Jul 2004

Bhagirath Singh Chahar (114597Z), MC ELR II, 28 Jul 2004

Utresh Kumar Dixit (161088K), MC ELR II, 01 Apr 2004

Bhupender Yadav (161920A), MC ELR II, 01 Apr 2004

Deep Chand Pandey (161976B), MC ELR II, 01 May 2004

Inder Jeet (110863N), MC ME II, 01 Apr 2004

Suresh Kumar (112786H), MC ME II, 01 Apr 2004

Suresh Babu N (113638W), MC ME II, 01 Jun 2004

Yogender Kumar (113699H), MC ME II, 01 Apr 2004

Daryodhan Singh (114281F), MC ME II, 01 Dec 2004

Jai Prakash (149417K), MC ME II, 01 Apr 2004

Sandeep Roy (160679F), MC ME II, 01 Apr 2004

Bhagirathi Yadav (160796Y), MC ME II, 01 Apr 2004

Ramesh Kumar (161065H), MC ME II, 01 Apr 2004

Paresh Chandra Rout (161826N), MC ME II, 01 Dec 2004

Ram Sunder Singh (162206A), MC ME II, 01 Apr 2004

Ram Kait Yadav (163126T), MC ME II, 01 Apr 2004

Anirudh Singh (163419H), MC ME II, 01 May 2004

Hari Sharan Sharma (166907K), MC ERA II, 01 May 2004

Rajesh Kumar (168232Y), MC ERA II, 01 Apr 2004

Janardanan V (168760Y), MC ERA II, 01 Apr 2004

Madan Kumar (169278Z), MC ERA II, 01 Apr 2004

Harendra Mishra (169324B), MC ERA II, 01 Apr 2004

Chaudhary T Kishan (169726T), MC ERA II, 01 Jun 2004

Bimal Kumar Ojha (169842F), MC ERA II, 01 Apr 2004

Bali Ram Chandel (170708Z), MC ERA II, 01 Oct 2004

Kailash Chandra (170963B), MC ERA II, 01 Apr 2004

Makara Sahoo (171021K), MC ERA II, 01 Apr 2004

Rajendra Singh (171847N), MC ERA II, 01 Apr 2004

Umesh Pratap Singh (172234T), MC ERA II, 01 Apr 2004

Dilbahadur Chhetri (172502A), MC ERA II, 01 Apr 2004

Barun Kumar Mehta (173090N), MC ERA II, 01 Apr 2004

Santosh Kumar Dash (173101N), MC ERA II, 01 Apr 2004

Rakesh Verma (192807Z), MC ERA II, 01 Apr 2004

Mohinder Paul (193153K), MC ERA II, 01 Apr 2004

Manjeet Kumar Sharma (193154N), MC ERA II, 01 Apr 2004

Vinod Kumar (193155R), MC ERA II, 01 Apr 2004

Jaiveer Singh (193196H), MC ERA II, 01 Apr 2004

Ashwini Kumar (193204A), MC ERA II, 01 Apr 2004

Binod Kumar Bari (193208K), MC ERA II, 01 Apr 2004

Surender Kumar Sharma (193209N), MC ERA II, 01 Apr 2004

Ajay Singh Bohra (193214Z), MC ERA II, 01 Apr 2004

Gupta VK Rulduram (193218H), MC ERA II, 01 Apr 2004

Popalghat R Shankar (193225Z), MC ERA II, 01 Apr 2004

Kishor Udhav Jadhav (193230K), MC ERA II, 01 Apr 2004

P Rajesh (193247Z), MC ERA II, 01 Apr 2004

Shahul Hameed N (193256W), MC ERA II, 01 Apr 2004

Lad Ajay Suresh (193281A), MC ERA II, 01 Apr 2004

Rajnish Kumar (193305F), MC ERA II, 01 Apr 2004

Anil V Jadhav (193306H), MC ERA II, 01 Apr 2004

Yogesh Kumar (193310T), MC ERA II, 01 Apr 2004

Jasveer Singh (193324Z), MC ERA II, 01 Apr 2004

BS Giridhar (193325A), MC ERA II, 01 Apr 2004

Purushottam Ram (193337B), MC ERA II, 15 Aug 2004

Suresh Kumar (193347A), MC ERA II, 01 Apr 2004

Rajbir Singh (193349F), MC ERA II, 01 Apr 2004

Sanjay Kumar (193358A), MC ERA II, 01 Apr 2004

Feroj Khan (193359B), MC ERA II, 01 Apr 2004

Roop Singh (193362), MC ERA II, 01 Apr 2004

Kundan Singh Negi (193370B), MC ERA II, 01 Apr 2004

Manoj Kumar Pandey (193371F), MC ERA II, 01 Apr 2004

More Parag Sopan (193376T), MC ERA II, 01 Apr 2004

Sidhartha Sarkar Sahoo (193379Z), MC ERA II, 01 Apr 2004

- Drigendra Kumar (193385N), MC ERA II, 01 Nov 2004
- Harminder Jit Singh (193386R), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Navin Kumar Yadav (193388W), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Pradeep Kumar (193391A), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Dinesh Babu (193393F), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Manoj Kumar (193394H), MC ERA II, 01 Sep 2004
- Brij Mohan Singh (193398T), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Gakwad D Shrirang (193399W), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Deepak Bist (193401Z), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Pawan Kumar Dubey (193402A), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Deepak Kumar Chouby (193403B), MC ERA II, 01 Apr 2004
- SM Tajuddin (193404F), MC ERA II, 02 Apr 2004
- Anurag Sirohi (193408R), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Bhim Singh Yadav (193409T), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Arvind Kumar Dixit (193410W), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Kale R Yeshwant Rao (193411Y), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Neeraj Kumar Rai (193414B), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Sunil Kumar (193417K), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Shiv Charan (193420T), MC ERA II, 01 Apr 2004
- Arun Kumar Singh (112508A), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Dhar Singh Rathore (193214F), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Jawahar Ray (113530Z), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Rajender Singh Dubey (113594W), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Udey Shanker Upadhyay (113900R), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Ashok Kumar (114128H), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Devki Nandan (114250K), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Dharam Pal (114381H), MC MECH II, 01 Apr 2004
- S Ramesh (114627T), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Buddha M Rao (114630Z), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Mohanadasan P (149038Z), MC MECH II, 01 Nov 2004
- Gulab Singh (150085B), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Durjyodhan Pradhan (160882T), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Kanchan Kumar Nayak (160986B), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Shiv Kant Singh (161289T), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Sunil Kumar Ray (161435Z), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Lal Chand (161522Y), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Vinod Kumar (162389T), MC MECH II, 01 Apr 2004
- Ashwani Kumar (163303W), MC MECH II, 01 Jun 2004
- Rajeev Kumar Mishra (163854Y), MC MECH II, 01 Aug 2004
- Hema Kanta Chetia (164156H), MC MECH II, 01 Oct 2004
- Ganesh Singh Kiraula (170432Y), MC EAP II, 01 Apr 2004
- Satyabadi Sundaray (173105Y), MC EAP II, 01 Jul 2004
- MA Koshy (197512T), MC EAP II, 01 Apr 2004
- Kuldeep Singh Katoch (197619K), MC EAP II, 01 Apr 2004
- Paramjit Singh (197686N), MC EAP II, 01 Sep 2004
- Apurba Kumar Choudhary (197688T), MC EAP II, 02 Apr 2004
- Rakesh Dutt Baloomi (197689W), MC EAP II, 01 Apr 2004
- Virender Krishana (197702Z), MC EAP II, 01 Apr 2004
- Chander Shekar Joshi (197704B), MC EAP II, 01 Apr 2004
- Sunil Kumar Das (197724Z), MC EAP II, 01 Nov 2004
- Subash Chandra (114520Z), MC MECH P II, 02 Apr 2004
- Bhism Pal (163129Z), MC MECH P II, 01 Apr 2004
- A Ponmudi (163325W), MC MECH P II, 01 Apr 2004
- Inder Singh (163568Y), MC MECH P II, 01 Apr 2004
- Vinod Kumar (166293R), MC MECH P II, 01 Apr 2004
- Brajesh Kumar Rai (197414W), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Anirudhan Saaji (197501T), MC EAR II, 01 Apr 2004
- KV Anil Kumar (197532N), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Suresh Kumar Sharma (197533R), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Ram Singh (197551F), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Anil Kumar Dahiya (197611T), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Umesh Sharma (197618H), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Akhilesh Kumar Singh (197634W), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Paramjit Singh (197651H), MC EAR II, 01 Apr 2004
- B Charan Jujhar Singh (197658Z), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Manoj Kumar (197661F), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Sushil Sharma (197671B), MC EAR II, 01 Apr 2004
- Ramesh Kumar (197673H), MC EAR II, 01 Apr 2003
- Bisundeo Pandit (197679Y), MC EAR II, 01 Apr 2004

Neeraj Kumar S Rathore (197687R), MC EAR II, 01 Apr 2004

Anupam Singh Negi (197701Y), MC EAR II, 01 Apr 2004

V Selvan (197709R), MC EAR II, 01 Apr 2004

Vikram Singh Yadav (197713Z), MC EAR II, 01 Oct 2004

Jagbir Singh (197721T), MC EAR II, 01 Dec 2004

Ramesh Chandra Yadav (197722W), MC EAR II, 01 Apr 2004

Santosh Raj Dwivedi (193126Z), MC SWA II, 01 Apr 2002

Saroj Kumar Rath (193139B), MC SWA II, 01 Apr 2004

Kamal Kant Rai (193147T), MC SWA II, 01 Apr 2004

Girish Kumar Shukla (193179W), MC SWA II, 01 Apr 2004

Paresh Mahato (193205B), MC SWA II, 01 Apr 2004

Prakash Chandra Patra (193231N), MC SWA II, 01 Apr 2004

Dhannhay KS Chauhan (193430R), MC SWA II, 01 Apr 2004

Korade C Kisan (193470F), MC SWA II, 01 Apr 2004

Desh Bandhu Sharma (193472K), MC SWA II, 01 Apr 2004

Harish Chander Katoch (193478Z), MC SWA II, 01 Apr 2004

G. S. AUDHKHASI, Under Secy.

AIR BRANCH

No. 166, dated 8th March 2006.—The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officers wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

INDIAN AIR FORCE

Ex-Flt Cadts to be Fg Offr

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Abhinav Selot (27768) wef 20 Dec 2003

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission and Wings to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 20 Dec 2003.

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Rupinder Deep Kaur (27772), Shaliza Dhani (27773) wef 20 Dec 2003.

S. SRIVASTAV
Wg. Cdr
JDPO-3C(D)

(ARMY BRANCH)

No. 167, dated 2nd March 2006.—The President is pleased to make the following promotions.

(REGULAR ARMY)

(ARMY MEDICAL CORPS)

To be Substantive Subedar Major (SKT)

Subedar Sukibswar Roy (JC-691237A), 01 Nov 2005

Subedar A Narayana Samy (JC-691375F), 01 Nov 2005

To be Substantive Subedar Clk (GD)

Naib Subedar Sobaran Singh (JC-693041L), 01 Dec 2005

Naib Subedar Hari Pal (JC-693042N), 01 Dec 2005

Naib Subedar Rajender Bahadur Singh (JC-693043W), 01 Dec 2005

Naib Subedar Subhash Chand (JC-693019A), 01 Dec 2005

To be Substantive Subedar (SKT)

Naib Subedar Kalyan Singh Jastha (JC-692808A), 01 Nov 2005

Naib Subedar Madan Paswan (JC-692811A), 01 Nov 2005

To be Substantive Subedar (RT)

Naib Subedar Jatendra Nath Upadhyay (JC-691355N), 01 Dec 2005

To be Substantive Subedar Chef (H)

Naib Subedar Panchanan Biswas (JC-693400N), 01 Jul 2005

Naib Subedar Neel Kanth (JC-693401W), 01 Sep 2005

To be Naib Subedar Clk (GD)

Havildar Narendra Singh (No. 13975893W now JC-695186P), 31 Oct 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Ashok Kumar Singh (No. 13954817W now JC-695213N), 27 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 29 Jul 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Sri Money K (No. 13974905N now JC-695214W), 19 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 15 Sep 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Janmenjoy Mahato (No. 13957086Y now JC-695183F), 04 Oct 2005*

Havildar Ram Binod Singh (No. 13957270K now JC-695216Y), 24 Nov 2005*

Havildar Sarwan Kumar (No. 13957277N now JC-695184K), 04 Oct 2005*

Havildar Prakash Singh (No. 13957313N now JC-695185M), 08 Oct 2005*

Havildar Shambhu Nath Adhikary (No. 13957334K now JC-695216Y), 22 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Mahatabuddin Shaikh (No. 13957336P now JC-695217K), 20 Dec 2005*

Havildar Jaivir Singh (No. 13957412W now JC-695218M), 01 Dec 2005*

Havildar Virender Singh (No. 13957512F now JC-695219P), 06 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

Havildar Surender Singh (No. 13957614X now JC-695220K), 01 Dec 2005*

Havildar Patel Hari Vadan Dahya Bhai (No. 13957777L now JC-695221M), 01 Dec 2005*

Havildar Kripa Shankar Dixit (No. 13957741M now JC-695222P), 05 Dec 2005*

Havildar Balbir Singh (No. 13957955H now JC-695223X), 01 Dec 2005*

Havildar Krishna Dasan PP (No. 13958019A now JC-695224A), 09 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allces)

To be Naib Subedar (SKT)

Havildar Bikram Singh (No. 13962008L now JC-695225H), 13 Dec 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 16 Oct 2005 without effect on pay and allces)

Havildar V Venugopalan (No. 13962052P now JC-695226L), 14 Nov 2005*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allces)

R. C. RATURI, Under Secy.

No. 168, dated 3rd March 2006.—The President is pleased to make the following promotion from Lieutenant to Captain wef the date as shown against the offr under the provisions of addendum No. 4 of 2/S/66 giving him ante-date seniority of 12 months being Post Graduate degree holder in Veterinary Science before commissioning in the Army :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION

Lieut to be Captain

No., Rank & Name, Corps, Date of Commission, Date of ante-date seniority and Date of promotion as Capt

VS-1083H Lt Deepak Verma, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

VS-1084L Lt Subhash Chander Patial, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

VS-1087Y Lt Manoj Kumar Bhatt, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

VS-1088F Lt Gajender Singh Rathore, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

VS-1089K Lt Santhosh M, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

VS-1093M Lt Parvesh Singh, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

VS-1095X Lt Avdhesh Kumar Sharma, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

VS-1098L Lt Vikas Kumar Pradhan, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

VS-1099N Lt Yogesh Singh, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

VS-1100X Lt Mitesh Mittal, RVC, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2004

President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY
REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav Rajender Singh (14345496F now JC-268687X), 05 Oct 2005/01 Aug 2005

Hav Shiv Dayal Yadav (14482529N now JC-268688A), 12 Oct 2005/13 Aug 2005

Hav Madhukar Shankar Watha (14490084F now JC-268689H), 19 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav Rajan Y (14372346P now JC-268690X), 28 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav Sagayaraj F (14389452K now JC-268691A), 16 Nov 2005/01 Sep 2005*

Hav Jagvir Singh (14368960M now JC-268692H), 28 Nov 2005/04 Sep 2005*

Hav Md Muzibar Rahman (14365694N now JC-268693L), 05 Nov 2005/18 Sep 2005*

Hav Veerender Singh Yadav (14395860L now JC-268694N), 18 Oct 2005/01 Oct 2005*

Hav Rajesh Singh Chauhan (14482704X now JC-268695W), 19 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav Ashok Thorawat (14361588X now JC-268696Y),
18 Nov 2005/01 Oct 2005*

Hav Amar Singh (14382790Y now JC-268697F), 18 Nov
2005/01 Oct 2005*

BHM Naphe Singh (14404165A now JC-268698K),
22 Nov 2005/02 Oct 2005*

Hav Rammher Singh (14480621N now JC-268699M),
06 Dec 2005/04 Nov 2005*

Hav Krishna Pal (14478619X now JC-268700W),
23 Dec 2005/21 Nov 2005*

RHM Manmohan Singh (14481818W now JC-268701Y),
12 Dec 2005/29 Nov 2005*

BHM Inderjit Singh (14371537X now JC-268702F),
22 Dec 2005/29 Nov 2005*

RHM Manohar Lal (14387511M now JC-268671M),
01 Nov 2005/01 Feb 2005*

Hav M Sudalai Muthu (14367273K now JC-268672P),
07 Nov 2005/30 Jun 2005*

Hav Uttam Kumar Sinha (14363779L now JC-268673X),
19 Sep 2005/06 Jul 2005*

Hav Vijay Pal (14480524W now JC-268674A), 28 Sep
2005/01 Aug 2005*

Hav Partap Singh (14477262A now JC-268675H),
07 Nov 2005/01 Aug 2005*

Hav Deepak Kumar Jha (14481071H now JC-268676L),
10 Nov 2005/05 Aug 2005*

Hav Purender Singh (14472131L now JC-268677N),
01 Nov 2005/18 Aug 2005*

Hav Gopala Krishna Pillai KB (14483909Y now JC-
268678W), 03 Nov 2005/30 Aug 2005*

Hav Pratheep Kumar P (14493905W now JC-268679Y),
03 Nov 2005/30 Aug 2005*

BHM Rohtas (14373247Y now JC-268680N), 17 Oct
2005/31 Aug 2005*

Hav D Shanmugam (14363884F now JC-268681W),
30 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav Buneswar Parasad (14375017K now JC-268682Y),
19 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav Siva Prasad B (14494198K now JC-268683F),
24 Nov 2005/30 Aug 2005*

Hav Babu Ranjan Nath (14364279A now JC-268684K),
22 Nov 2005/11 Sep 2005*

Rhm Sudhir Kumar Singh (14482739N now JC-
268685M), 03 Nov 2005/06 Oct 2005*

Rhm Azad Poddar (14369000A now JC-268686P),
07 Nov 2005/01 Nov 2005*

*(Gtd seniority wef)

S. P. SHARMA, Under Secy.

No. 169, dated 7th March 2006.—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen & (equivalent) to be Lt Gen & (equivalent)

ML Chawla (MR-02068A), 30.05.2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 01.04.2005.

MP Jaiprakash (MR-02250A), 30.05.2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 01.05.2005.

HK Maini (MR-02282H), 01.07.2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 01.06.2005.

LP Sadhotra (MR-03158N), 30.09.2005

GP Capt & (Equivalent) to be Air Cmde (& Equivalent)

K Fernandez (MR-02839K) (AF-12660), 01.10.2004 with
notional seniority without effect on pay & pension from
29.06.2004.

DK Khanna (MR-04934P) (AF-13760), 02.05.2005 with
notional seniority without effect on pay & pension from
30.01.2005

Brig & (Equivalent) to be Maj Gen (& Equivalent)

MR Waghay (MR-02895M), 08.09.2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 01.06.2005.

AK Jaiswal (MR-02783M), 01.09.2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 03.06.2005.

Y Satapathy (MR-03171X), 05.09.2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 02.07.2005.

OP Mathew (MR-02838F), 07.11.2005 with notional
seniority without effect on pay & pension from 02.10.2005.

Col & (equivalent) to be Brig & (equivalent)

PL Gupta (MR-03646W), 19.10.2004 with notional
seniority without effect on pay & pension from 31.03.2004.

Lt Col & (equivalent) to be Col & (equivalent)

SS Najotra (MR-04526K), 24.10.2004 with notional
seniority without effect on pay & pension from 28.06.2004.

RAJESH KAMRAN

Brig.

Dy. DGAFMS (P)

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL
QUALITY ASSURANCE

No. 170 dated 6 March 2006.—The President is pleased
to make the following promotions:—

1. Shri SC Karan, Senior Scientific Officer Grade-II of
MSQAA, Mumbai as Senior Scientific Officer Grade-I in
MSQAA, Mumbai wef 22 Mar 2005 (F/N).

2. Shri Mahender Singh, Senior Scientific Officer
Grade-II of OCRI, Bangalore as Senior Scientific Officer
Grade-I in ALISDA, Bangalore wef 31 Mar 2005 (F/N).

3. Shri SKRR Sankhia Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Nasik Division, Ojhar as Senior Scientific Officer Grade-I in AAIW, Dett Kanpur wef 18 Apr 2005 (F/N)

4. Shri R Jaiganesh, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, (AA) Kirkee wef 20 Jun 2005 (F/N).

5. Shri P Mathiyazhghan, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, Koraput wef 13 Jun 2005 (F/N).

6. Shri C Rangaswamaiah, Senior Scientific Officer Grade-II of OCRI, Bangalore as Senior Scientific Officer Grade-I in OCRI, Bangalore wef 17 Mar 2005 (F/N).

V. SETUMAGHIVAN, Under Secy.

KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHAstra SENA
CHIKITSA SEWA

No. 171, dated 8 March 2006.—Resignation of Dr. (Mrs.) Pinky Yadav Lady Medical Officer (Group 'A' Gazetted) of Family Welfare Organization under Ministry of Defence has been accepted by the competent Authority with effect from 24 Sep 2004 (A/N) and struck off strength from the same date.

Dr. (Mrs) SL Sood, Associate Professor Gp 'A' Gazetted at All India Hospital Post Partum cell AFMC, Pune (Family Welfare) under Ministry of Defence retired from service on attaining the age of superannuation with effect from 28 Feb 2005 (A/N) and transferred to Pension Establishment w.e.f. 01.03.2005 (F/N).

AN SINHA, Dy. Dir/DG-3D

ARMY BRANCH

No. 172 dated 7 March 2006.—The undermentioned officer has been awarded the following punishment by the sentence of the GCM and promulgation carried out on 30 May 2005:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

MR-06486M Lt. Col Pramod Kumar

(a) To forfeit eight years past service for the purpose of pension, and

(b) To be severely reprimanded.

Authority:—C/06280/EC/239/AG/DV-2 dated 27 Jun 2005.

RAJESH KAMRAN

Brig.

Dy. DGAFMS (P)

CORRIGENDUM

No. 173 dated 2 Mar 2006.—In Ministry of Defence Notification of even number dated 19.12.2005 appointing officers of this Ministry to the grade I of CSS (Under Secretary) for the year 1998 in column relating to date of initial appointment as US against Shri F. K. Pande at S.No. 5:—

FOR

23.10.1998

READ

28.9.1998

G. VIJAYARAGHAVAN, Under Secy.